



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 485]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 28, 2005/अग्रहायण 7, 1927

No. 485]

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 28, 2005/AGRAHAYANA 7, 1927

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 नवम्बर, 2005

सा.का.नि. 694(अ).— खाद्य, अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 का और संशोधन

करने के लिए कतिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 (1954 का 37) की धारा 23 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय खाद्य मानक समिति से परामर्श के पश्चात् बनाना चाहती है, उक्त उपधारा (1) की अपेक्षानुसार उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, प्रकाशित किया जाता है, और सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमों पर उस तारीख से, जिसको उस राजपत्र की प्रतियां जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित की जाती है जनता को उपलब्ध करा दी जाती है साठ दिन की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा।

आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हों, सचिव, भारत सरकार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली- 110011 को भेजे जा सकेंगे।

ऐसे आक्षेपों या सुझावों पर, जो इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पूर्व उक्त प्रारूप नियमों की बाबत किसी व्यक्ति से प्राप्त हो सकेंगे, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप नियम

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम (संशोधन) नियम, 2005 है।

(2) ये राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम 1955 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 2 में, खंड (च) के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

(घ) “दावा ” से ऐसा कोई अभ्यावेदन अभिप्रेत है जिसमें यह विवरण, सुझाव या अंतर्हित होता है कि किसी खाद्य में उसके उद्गम, पोषण गुण, प्रकृति, प्रसंस्करण, सम्मिश्रण या कोई अन्य क्वालिटी से संबंधित विशिष्ट क्वालिटी है ;

(ज) “उपभोक्ता” से उपभोग के लिए क्रय करने वाले और प्राप्त करने वाले व्यक्ति और कुटुंब अभिप्रेत है;

(झ) “संदूषक” से कोई ऐसा पदार्थ अभिप्रेत है जो खाद्य में साशय नहीं मिलाया गया है, जो ऐसे खाद्य में उत्पादन (जिसके अंतर्गत फसल कृषि, पशु-पालन और पशु चिकित्सीय औषध में की गई संक्रियाएं भी हैं) विनिर्माण, प्रसंस्करण, निर्मिति, उपचार, पैकिंग, पैकेजिंग, परिवहन या ऐसे खाद्य के धारण करने के परिणामस्वरूप या परिवेशी संदूषण के परिणामस्वरूप ऐसे खाद्य में विद्यमान हों । इस शब्द के अंतर्गत कीट खंड, कृन्तक रोम और अन्य बाह्य पदार्थ नहीं आते हैं;

(ञ) “विनिर्माण की तारीख” से ऐसी तारीख अभिप्रेत है जिसको यथा वर्णित उत्पाद खाद्य बन जाता है ;

(ट) “पैकेजिंग की तारीख” से वह तारीख अभिप्रेत है जिसको खाद्य सीधा उस आधान में रखा जाता है जिसमें उसे अंत में विक्रय किया जाएगा;

(ठ) “के पूर्व सर्वोत्तम” से ऐसी तारीख अभिप्रेत है जो किन्हीं कथित भंडारण दशाओं के अधीन अवधि की समाप्ति को संज्ञापित करती है जिसके दौरान उत्पाद पूर्ण रूप

से विपण्य रहेगा और कोई विनिर्दिष्ट क्वालिटी प्रतिधारित करेगा जिसके लिए अव्यक्त या व्यक्त दावे किए गए हों । तथापि उस तारीख के बाद भी वह खाद्य पूर्णतः संतोषप्रद हो सकेगा ;

(ड) “समाप्ति की तारीख” से वह तारीख अभिप्रेत है जो किन्हीं भंडारण दशाओं के अधीन अनुमानित अवधि की समाप्ति को संज्ञापित करती है जिसके पश्चात् उत्पाद अधिसंभाव्यतः उपभोक्ताओं द्वारा उस क्वालिटी का नहीं माना जाएगा जिसकी सामान्यतः प्रत्याशा की जाती है । इस तारीख के पश्चात् खाद्य विपण्य नहीं माना जाएगा ;

(ढ) “खाद्य योज्य” से ऐसा कोई पदार्थ अभिप्रेत है जिसे सामान्यतः अपने आप में खाद्य के रूप में उपभोग नहीं किया जाता है और न ही सामान्यतः खाद्य के विशिष्ट संघटक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, चाहे उसमें पोषक महत्व हो या नहीं, जिसके ऐसे खाद्य के विनिर्माण, प्रसंस्करण, निर्मिति, उपचार, पैकिंग, पैकेजिंग परिवहन या धारण करने में किसी प्रौद्योगिक (जिसके अंतर्गत इंद्रियग्राही भी है) प्रयोजन के लिए उस खाद्य में जिसके मिलाए जाने का आशय है ; या उसमें या उसके उपोत्पाद ऐसे खाद्य के अभिलक्षणों का संघटक होने या उसे अन्यथा प्रभावित करने के लिए उसके प्रभाव (प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः) की युक्तियुक्त प्रत्याशा की जाए । इस शब्द के अंतर्गत ऐसे संदूषक या पदार्थ नहीं आते हैं जो खाद्य में पोषण संबंधी क्वालिटियों के बनाए रखने या उनके सुधार करने के लिए मिलाए जाते हैं ;

(ण) “विशेष आहार उपयोगों के लिए खाद्य” से ऐसे खाद्य अभिप्रेत हैं जो विशेषतः विशिष्ट आहार अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रसंस्कृत या बनाए जाते हैं जो किसी विशिष्ट शारीरिक या शरीर क्रियात्मक दशा और/या विनिर्दिष्ट रोगों और विकारों के कारण विद्यमान रहती हैं और जो उस रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं इन खाद्य पदार्थों की संरचना तुल्य प्रकृति को उन सामान्य खाद्यों की संरचना से महत्वपूर्ण रूप से भिन्न होनी चाहिए, यदि ऐसा सामान्य खाद्य विद्यमान रहता है ।

स्पष्टीकरण:- विशेष आहार उपयोगों के लिए खाद्यों के कुछ उदाहरण शिशु दुग्ध अनुकल्प, शिशु आहार, ग्लूटन मुक्त खाद्य, निम्न सोडियम अंतर्वस्तु से युक्त खाद्य, विशेष चिकित्सीय प्रयोजनों के लिए खाद्य, भार नियंत्रण आहारों में उपयोग के लिए सूत्र, हैं ;

- (क) “संघटक” से कोई पदार्थ अभिप्रेत है जिसके अंतर्गत किसी खाद्य के विनिर्माण या निर्मिति में प्रयुक्त कोई खाद्य योग्य भी है और संभवतः किसी उपांतरित रूप में अंतिम उत्पाद में विद्यमान हो;
- (ख) “लेबल” से किसी खाद्य पैकेज के आधान या उससे संलग्न आच्छादन, ढक्कन या किर्रीट पर कोई लिखित, आलेखी, छिद्रित, स्टांपित, टैग, ब्रांड, चिन्ह, पिक्टोरियल या अन्य वर्णनात्मक बात, मुद्रित, स्टेंसिल, चिन्हित, उच्चित्रित या छापित कोई संप्रदर्शन अभिप्रेत है ;
- (ग) “लेबल लगाना” जिसके अंतर्गत कोई लिखित, मुद्रित या आलेखी बात भी है जो खाद्य के साथ लगे लेबल पर विद्यमान है, या खाद्य के निकट संप्रदर्शित की जाती है जिसके अंतर्गत वह जो उसके विक्रय के बढ़ाने या व्ययन के प्रयोजन के लिए है ;
- (घ) “लॉट संख्यांक” या “कोड संख्यांक” या “बैच संख्यांक” से वह संख्यांक जो या तो अंकों या वर्णमाला में या दर्शित संयोजन के पूर्व “लॉट संख्यांक” या “लॉट” या “कोड संख्यांक” या “बैच संख्यांक” या “बैच” शब्द या कोई सुभेदक उपसर्ग होगा जो खाद्य के विनिर्माण में अनुरेखित और वितरण में पहचाना जा सकता हो, अभिप्रेत है;
- (न) “पहले से पैक की गई” से किसी आधान में पहले से ही पैक की गई या तैयार की गई उपभोक्ता को पेश करने या खान-पान प्रयोजनों के लिए तैयार, अभिप्रेत है ;

(प) “प्रधान संप्रदर्शन पैनल” से लेबल का वह भाग अभिप्रेत है जो संप्रदर्शित किए जाने के लिए आशयित या संभाव्य है, और पैकेज में अंतर्विष्ट वस्तु के संप्रदर्शन, विक्रय या क्रय की सामान्य और रूढ़िगत शर्तों के अधीन प्रदर्शित या दर्शित या ग्राहक द्वारा परीक्षित हो ;

(फ) “प्रसंस्करण सहाय्य” से ऐसा पदार्थ या सामग्री अभिप्रेत है जिसके अंतर्गत साधित्र या बर्तन नहीं हैं और न ही अपने आप में खाद्य संघटक के रूप में उपभोग किया जाता है जो आशयित रूप से उपचार या प्रसंस्करण के दौरान कतिपय प्रौद्योगिक प्रयोजन को पूरा करने के लिए कच्ची सामग्री , खाद्य या उसके संघटकों के प्रसंस्करण में प्रयुक्त किए जाते हैं और जिसके गैर आशयित प्रभाव हो सकेगा किन्तु अंतिम उत्पाद में अवशिष्ट या व्युत्पन्न की अपरिहार्य उपस्थिति हो सकेगी।

3. उक्त नियमों के नियम 32 में,-

(अ) “32. खाद्य पैकेज पर एक लेबल का होना - प्रत्येक खाद्य पैकेज पर एक लेबल होगा और ऐसे प्रत्येक लेबल पर और जब तक इन नियमों में अन्यथा उपबंधित न किया जाए, निम्नलिखित विनिर्दिष्ट किया जाएगा :-

(क) वर्णन , पैकेज में रखे गए खाद्य पदार्थ का नाम, व्यापार नाम, या

(ख) उत्पाद में प्रयुक्त संघटकों के नाम, यथास्थिति, उनकी संरचना में भार या प्रबलता के अनुसार अवरोही क्रम में ;” शब्दों और अंकों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

“ 32. खाद्य के पैकेज पर एक लेबल का होना,-

(1) साधारण

- (i) पहले से पैक किए गए खाद्य को किसी लेबल पर या किसी लेबल लगाने की रीति में वर्णित या दर्शित नहीं किया जाएगा जो मिथ्या, भ्रामक या प्रवंचक हो या उसके संबंध में किसी प्रकार से उसके स्वरूप के बारे में गलत धारणा पैदा होने की संभावना हो ।
- (ii) पहले से पैक किए गए खाद्यों में लेबल ऐसी रीति में लगाया जाएगा कि वे आधान से पृथक नहीं हो जाएं ।
- (iii) लेबल पर अन्तर्वस्तु स्पष्ट, प्रमुख, अमिट और क्रय और उपयोग की सामान्य शर्त के अधीन उपभोक्ता द्वारा आसानी से सुपाठ्य होगी ।
- (iv) जहां आधान लपेटन द्वारा आवरित किया जाता है वहां लपेटन पर आवश्यक सूचना लगी होगी या आधान पर लेबल बाहरी लपेटन के माध्यम से आसानी से सुपाठ्य होगा या उसके द्वारा मलिन नहीं होगा ।

(2) पहले से पैक किए गए खाद्यों पर लेबल होना

खाद्य के प्रत्येक पैकेज के लेबल पर निम्नलिखित सूचना होगी:-

(क) खाद्य का नाम

पैकेज में अंतर्विष्ट खाद्य का नाम, व्यापार नाम या वर्णन ।

(ख) संघटकों की सूची

संघटकों की सूची लेबल पर घोषित की जाएगी और निम्नलिखित रीति से होगी:-

- (i) संघटकों की सूची शीर्ष पर होगी या उसके पहले एक समुचित शीर्षक होगा जिसमें “संघटक” शब्द समाविष्ट या सम्मिलित होगा ।
- (ii) उत्पादों में प्रयुक्त संघटकों के नाम, यथास्थित, भार या प्रबलता के अनुसार उनकी संरचना अवरोही क्रम में लेबल पर घोषित होगी ।
- (iii) किसी मिश्रण या संयोजन के रूप में बेचे गए खाद्य के प्रत्येक पैकेज पर खाद्य (जिसके अंतर्गत सम्मिश्रित संघटकों के संघटक या संघटकों के प्रवर्ग हैं) के

विनिर्माण के समय किसी संघटक की भीतर जाने वाली प्रतिशतता भार या प्रबलता के अनुसार याथोचित रूप में प्रकट की जाएगी और -

- (क) उस पर शब्दों या चित्रों या आलेखों के माध्यम से लेबल पर यथा विद्यमान रूप में जोर दिया जाता है ; या
- (ख) वह खाद्य के अभिलक्षण के लिए आवश्यक है और उसका ऐसे अन्य खाद्यों से सुभिन्न करना आवश्यक है जो भ्रमित कर सकते हों; या
- (ग) उस पर खाद्य के नाम में जोर दिया जाता है ; या
- (घ) वह फलों, सब्जियों, साबुत अनाजों या मिलाई गई शर्कराओं की उपस्थिति के बारे में किसी व्यक्ति या विविक्षित दावे की विषयवस्तु है ; और
- (ङ) जिसका प्रकटीकरण उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य में वृद्धि या उपभोक्ता प्रवंचना का निवारण करने के लिए आवश्यक समझा जाता है ;

परंतु जहां संघटक उत्पाद के कुल भार के दो प्रतिशत से कम है और वासक के प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त किया गया है वहां उपरोक्त प्रकटीकरण अपेक्षित नहीं है ;

(iv) उत्पाद की 100 प्रतिग्राह संपूर्ण पोषण संबंधी सूचना लेबल पर दी जाएगी जिसमें निम्नलिखित अंतर्विष्ट होगा :-

- (क) ऊर्जा मूल्य संबंधी सूचना आईसीएमआर की आरडीए के पोषक की प्रतिशतता के साथ प्रति 100 ग्राम या प्रति 100 मिलीलीटर केजे और कैसीएल में अभिव्यक्त की जानी चाहिए ।
- (ख) खाद्य में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा की मात्रा संबंधी सूचना आईसीएमआर की आरडीए के पोषक की प्रतिशतता के साथ प्रति 100 ग्राम या प्रति 100 मिली लीटर में अभिव्यक्त की जानी चाहिए ।
- (ग) वसीय अम्लों की मात्रा और /या प्रकार (जिसके अंतर्गत संतृप्त वसीय अम्लों, बहुअसंतृप्त वसीय अम्लों और पार वसीय अम्लों की मात्रा भी है) ।
- (घ) विटामिनों और खनिज संबंधी अंकीय सूचना मीट्रिक यूनिटों में और/या आईसीएमआर के आरडीए के पोषक की प्रतिशतता के साथ प्रति 100 ग्राम

या प्रति 100 मिलीलीटर आईसीएमआर के पोषक निर्देश मूल्य की प्रतिशतता के रूप में अभिव्यक्त की जानी चाहिए ।”

- (v) जहां संघटक अपने आप में दो या अधिक संघटकों का उत्पाद है, ऐसे सम्मिश्रित संघटकों की सूची में उसी रूप में घोषित किया जा सकेगा परंतु यह है कि यह किसी सूची के ठीक साथ भार अवरोही क्रम में उसके संघटकों के कोष्टकों में लगा होगा :

परंतु यह कि जहां किसी सम्मिश्रित संघटक जिसके लिए इन नियमों में कोई नाम नियत किया गया है, खाद्य योज्यों से भिन्न संघटक खाद्य के 2 प्रतिशत से कम होता है जो तैयार उत्पाद में प्रौद्योगिक कार्य की पूर्ति करता है के घोषित किए जाने की आवश्यकता नहीं होगी ;

- (vi) मिलाया गया जल संघटकों की सूची में घोषित किया जाएगा सिवाए जब ब्राइन, सीरप या सम्मिश्रित खाद्य में प्रयुक्त ब्रोथ जैसे संघटक का भाग रूप जल हो और संघटकों की सूची में उस रूप में घोषित किया जाता है । विनिर्माण के दौरान उद्वाष्पित जल या अन्य वाष्पशील संघटकों के घोषित करने की आवश्यकता नहीं है :

परंतु यह कि इस नियम के साधारण उपबंध के अनुकल्पित रूप में निर्जलित या संघनित खाद्य जो केवल जल के मिलाए जाने से पुर्नगठित किए जाने के लिए आशयित हैं, संघटक पुर्नगठित उत्पाद में भार के क्रम में सूचीबद्ध किए जा सकेंगे, परंतु यह तब जब कि “उत्पाद के संघटक जब लेबल पर निदेशों के अनुसार तैयार किए जाते हैं” जैसा कथन सम्मिलित किया जाता है ।” ।

(आ) खंड (ख) में,-

- (i) पहले और दूसरे परंतुक जिसके अंतर्गत दूसरे परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित पैरा भी है, का लोप किया जाएगा ;

“20 ग्राम या उससे कम भार वाले कन्फेक्शनरी के पैकेजों की दशा में जिन्हें भी संघटकों के घोषणा से छूट प्राप्त हैं “पशु उद्गम” चाहे इसमें जिलेटिन अंतर्विष्ट है को घोषणा से छूट प्राप्त होगी, परंतु यह कि ऐसी घोषणा मल्टीपीस पैकेज पर ऐसी रीति में दी जाएगी कि वह पैकेज के खोले बिना भी सुपाठ्य हो ।”

- (ii) अंत में, खंड (ग) के पूर्व निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“ परंतु यह भी कि जब रंगों और सुवासकों की सम्मिलित घोषणा दी जाती है तब प्रयुक्त रंगों के अंतर्राष्ट्रीय संख्यात्मक पहचान संख्यांक भी या तो संघटकों की सूची के नीचे या घोषणा के साथ उपदर्शित की जाएगी :

परंतु यह भी कि सूकर मांस वसा, सूकर वसा और गो मांस वसा या उसका निष्कर्षण उनके विनिर्दिष्ट नामों द्वारा घोषित किए जाएंगे।”

- (इ) खंड (घ), खंड (ङ), खंड (च), खंड (छ), खंड (ज) और खंड (ख), खंड (घ), खंड (ङ) और खंड (च) से संबंधित खंड (च) के अधीन सभी परंतुकों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

“ (घ) शुद्ध अंतर्वस्तुएं और जलोत्सारित भार

अंतर्वस्तुएं शुद्ध भार या संख्या या माप या मात्रा जैसा परिस्थितियों के अनुसार अपेक्षित हो, लेबल पर घोषित किया जाएगा । शुद्ध अंतर्वस्तुएं (क) मात्रा के अनुसार द्रव खाद्यों के लिए ; (ख) भार के अनुसार ठोस खाद्यों के लिए ; (ग) अर्द्ध ठोस और श्यान खाद्यों के लिए या तो भार या मात्रा के अनुसार घोषित की जाएंगी । शुद्ध अंतर्वस्तुओं की घोषणा के अतिरिक्त द्रव माध्यम में पैक किए गए किसी खाद्य पर खाद्य के जलोत्सारित भार की मैट्रिक प्रणाली में घोषणा होगी । इस अपेक्षा के प्रयोजनों के लिए द्रव माध्यम से जल, चीनी और नमक के जलीय घोल, केवल डिब्बा बंद फलों और सब्जियों में फल और सब्जी के रस या सिरका को या तो अकेले या अभिमिश्रण अभिप्रेत है ।

(ङ) लॉट/कोड/बैच पहचान

बैच संख्यांक या कोड संख्यांक या लाट संख्यांक जो पहचान का कोई चिन्ह है जिसके द्वारा खाद्य विनिर्माण में अनुरेखित किया जा सकता हो या वितरण में पहचाना जा सकता हो, लेबल पर दिया जाएगा ।

(च) विनिर्माण या पैक करने की तारीख

तारीख, मास और वर्ष जिसमें वस्तु विनिर्मित, पैक या पहले से पैक की जाती है लेबल पर दी जाएगी, परंतु यदि उत्पादों की “तारीख के पूर्व सर्वोत्तम” 3 मास से अधिक है तो विनिर्माण, पैक करने या पहले से पैक करने का मास और वर्ष दिया जाएगा :

परंतु यह भी कि ऐसी कोई पैकेज वस्तु जिसकी 3 मास से कम की अल्प निधानी आयु है की दशा में वह तारीख, मास और वर्ष जिसमें वस्तु विनिर्मित या तैयार या पहले से पैक की जाती है लेबल पर उल्लिखित की जाएगी ।

(छ) समाप्ति की तारीख

निम्नलिखित की दशा में समाप्ति की तारीख दी जाएगी,-

- (i) एसपर्टेम के पैकेज की दशा में जो पैक करने की तारीख से तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ;
- (ii) शिशु आहार अनुकूल्य और शिशु आहार की दशा में ।

(ज)

किरणित खाद्य

- (i) किसी खाद्य, जो आयन किरणन से उपचारित किया गया है के लेबल पर खाद्य के नाम के निकट सामिप्य में उपचार उपदर्शित करने वाला लिखित कथन होगा । यथा नीचे दर्शित अंतर्राष्ट्रीय खाद्य किरणन प्रतीक प्रयुक्त खाद्य के नाम या ब्रांड नाम के निकट सामिप्य में किया जाएगा ।



- (ii) जब कोई किरणित उत्पाद किसी अन्य खाद्य में संघटक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तब यह संघटकों की सूची में इस प्रकार घोषित किया जाएगा।
- (iii) जब कोई एकल संघटक उत्पाद कच्ची सामाग्री से तैयार किया जाता है जो किरणित की गई हो तब उत्पाद के लेबल पर उपचार उपदर्शित करने वाला कथन अंतर्विष्ट होगा ।
- (iv) किरणित यूनिटों की अनुज्ञप्ति संख्यांक लेबल पर घोषित की जाएगी ।” ।

(ई) खंड (झ) में, तीसरे परंतुक का लोप किया जाएगा ।

(उ) खंड (झ) के पश्चात् और स्पष्टीकरणों के पूर्व, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(ज) उद्गम का देश

(i) खाद्य के उद्गम का देश घोषित किया जाएगा ।

(ii) जब खाद्य का प्रसंस्करण किसी दूसरे देश में किया जाता है जिससे उसकी प्रकृति बदल जाती है तब वह देश, जिसमें प्रसंस्करण किया जाता है, लेबल लगाने के प्रयोजनों के लिए उद्गम का देश समझा जाएगा ।

(ट) उपयोग के लिए अनुदेश

उपयोग जिसके अंतर्गत पुनर्गठन भी है, के लिए अनुदेश, जहां भी लागू हो, खाद्य का सही उपयोग सुनिश्चित करने के लिए, यथा आवश्यक, लेबल पर सम्मिलित किए जाएंगे ।

(ठ) लेबल होने की अपेक्षाओं से छूट

जहां लेबल के महत्तम पृष्ठीय क्षेत्रफल 10सीएम² से कम है, वहां ऐसा लेबल संघटकों की सूची, लॉट संख्यांक/बैच संख्यांक, समाप्ति तारीख/तारीख के पूर्व सर्वोत्तम और उपयोग के अनुदेश की अपेक्षाओं से छूट प्राप्त हो सकेगा किन्तु ये अपेक्षाएं यथास्थिति थोक पैकेजों या मल्टी-पीस पैकेजों पर दी जाएंगी ।

(ड) अन्य लेबल होने की अपेक्षाएं

लिखित, मुद्रित कोई सूचना या पिक्टोरियल युक्ति, या आलेखी बात लेबल में संप्रदर्शित की जा सकेगी परंतु यह तब जब कि यह इन नियमों की अपेक्षाओं के उल्लंघन में नहीं है ।”

(ऊ) खंड (झ) के पश्चात् आने वाले स्पष्टीकरण 1, 3 और 4 का लोप किया जाएगा ।

4. नियम 37क के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

“ 37क सांपत्तिक खाद्य का विनिर्माण :-

सांपत्तिक खाद्य से ऐसा खाद्य अभिप्रेत है जो खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के अधीन मानकीकृत नहीं किया गया है ।

अन्यत्र इन नियमों के अधीन यथा विहित लेबल उपबंधों के अतिरिक्त सांपत्तिक खाद्य निम्नलिखित अपेक्षाओं के अनुरूप भी होगा :-

- (क) सांपत्तिक उत्पादों का विनिर्माता प्रत्येक सांपत्तिक खाद्य के विनिर्माण के लिए पृथक् अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त करेगा । विनिर्माता अनुज्ञप्ति प्राधिकारी के अवलोकन या समीक्षा के लिए प्रोटोटाइप लेबल या अंतिम लेबल जो भी उपलब्ध है आवेदन के साथ प्रस्तुत करेगा ।
- (ख) खाद्य का नाम और/या प्रवर्ग जिसके अधीन इन नियमों के अंतर्गत वह आता है लेबल पर उल्लिखित किया जाएगा ।
- (ग) किसी मिश्रण या संयोजन के रूप में बेचे गए खाद्य के प्रत्येक पैकेज पर खाद्य (जिसके अंतर्गत सम्मिश्रित संघटकों के संघटक या संघटकों के प्रवर्ग हैं) के विनिर्माण के समय किसी संघटक की भीतर जाने वाली प्रतिशतता भार या प्रबलता के अनुसार याथोचित रूप में प्रकट की जाएगी और -
 - (i) उस पर शब्दों या चित्रों या आलेखों के माध्यम से लेबल पर यथा विद्यमान रूप में जोर दिया जाता है ; या
 - (ii) वह खाद्य के अभिलक्षण के लिए आवश्यक है और उसका ऐसे अन्य खाद्यों से सुभिन्न करना आवश्यक है जो भ्रमित कर सकते हों; या
 - (iii) उस पर खाद्य के नाम में जोर दिया जाता है ; या
 - (iv) वह फलों, सब्जियों, साबुत अनाजों या मिलाई गई शर्कराओं की उपस्थिति के बारे में किसी व्यक्ति या विविक्षित दावे की विषयवस्तु है ; और

- (v) जिसका प्रकटीकरण उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की वृद्धि या उपभोक्ता प्रवृत्ति का निवारण करने के लिए आवश्यक समझा जाता है :

परंतु जहां संघटक उत्पाद के कुल भार के दो प्रतिशत से कम है और वासक के प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त किया गया है वहां उपरोक्त प्रकटीकरण अपेक्षित नहीं है ;

- (घ) उत्पाद की प्रति 100 ग्राम संपूर्ण पोषण संबंधी सूचना लेबल पर दी जाएगी जिसमें निम्नलिखित अंतर्विष्ट होगा :-

- (i) ऊर्जा मूल्य संबंधी सूचना आईसीएमआर की आरडीए के पोषक की प्रतिशतता के साथ प्रति 100 ग्राम या प्रति 100 मिलीलीटर केजे और कैसीएल में अभिव्यक्त की जानी चाहिए ।

- (ii) खाद्य में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा की मात्रा संबंधी सूचना आईसीएमआर की आरडीए के पोषक की प्रतिशतता के साथ प्रति 100 ग्राम या प्रति 100 मिली लीटर में अभिव्यक्त की जानी चाहिए ।

- (iii) वसीय अम्लों की मात्रा और/या प्रकार (जिसके अंतर्गत संतृप्त वसीय अम्लों, बहुअसंतृप्त वसीय अम्लों और पार वसीय अम्लों की मात्रा भी है) ।

- (iv) विटामिनों और खनिज संबंधी अंकीय सूचना मीट्रिक यूनिटों में और/या आईसीएमआर के आरडीए के पोषक की प्रतिशतता के साथ प्रति 100 ग्राम या प्रति 100 मिलीलीटर आईसीएमआर के पोषक निर्देश मूल्य की प्रतिशतता के रूप में अभिव्यक्त की जानी चाहिए ।”

- (ङ) तंबाकू अल्कोहलिक पेय और निकोटिन सांपत्तिक उत्पादों के विनिर्माण में संघटकों के रूप में प्रयुक्त नहीं की जाएगी ।

- (च) उत्पाद में ऐसे कोई पदार्थ अंतर्विष्ट नहीं होंगे जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं ।

- (छ) जहां नियमों के अधीन पहचान किए गए रूप में कोई तीव्रग्राही और/या अतिसंवेदी संघटकों, या किसी तीव्रग्राही और/या अतिसंवेदी संघटकों से उद्भूत होने वाले किसी संघटक से युक्त खाद्य में खाद्यों के नाम में तीव्रग्राही संघटक/ अतिसंवेदी संघटकों को विनिर्दिष्ट नहीं किया

जाता है वहां उस खाद्य को संबंधित तीव्रग्राही/संवेदी संघटक के नाम के स्पष्ट प्रतिनिर्देश से चिह्नित किया जाएगा या लेबल लगाया जाएगा ।

(ज) उत्पाद में उस खाद्य और/या खाद्य के प्रवर्ग के लिए इन नियमों में यथा उपबंधित के सिवाय खाद्य योज्य नहीं होंगे ।”

5. नियम 37ख में, उपनियम (1) के पूर्व निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“ किसी शिशु खाद्य पदार्थ का जिसका मानक परिशिष्ट ‘ख’ में विहित नहीं है विक्रय के लिए विनिर्माण, विक्रय के लिए प्रदर्शन या विक्रय के लिए भंडारकरण, भारत सरकार से ऐसे खाद्य पदार्थ और उसके लेबल का अनुमोदन अभिप्राप्त करने के पश्चात् ही किया जाएगा । शिशु दुग्ध अनुकल्प/शिशु आहार की लेबल अपेक्षाओं में अन्यत्र इन नियमों के अधीन यथा विहित लेबल उपबंधों के अतिरिक्त निम्नलिखित सूचना भी लगी होगी ।”

6. नियम 40 के उपनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

“ (2)(i) ऐसे किसी फल- सीरप, फल रस, फल स्कवैश, फल -पेय, कार्डियल, क्रश या इन नियमों के परिशिष्ट ख के अधीन मानकीकृत किसी अन्य फल उत्पाद का जिसमें फल-रस/फल गूदा/फल अंतर्वस्तु विहित मात्रा में नहीं है, यथास्थिति, फल-सीरप, फल- रस, फल स्कवैश, फल-पेय, कार्डियल, क्रश या किसी अन्य फल उत्पाद के रूप में वर्णन नहीं किया जाएगा और ऐसे उत्पादों का फल रहित उत्पादों के रूप में वर्णन किया जाएगा ।

प्रत्येक फल रहित उत्पाद स्पष्ट रूप से, सहज दृश्य रूप से और आसानी से पठनीय रीति में ‘फल रहित उत्पाद’ के रूप में लेबल पर चिह्नित किया जाएगा और ऐसे उत्पाद से युक्त आधान पर फलों के चित्र या फल शब्द चाहे उससे संलग्न हों या ऐसे आधान के लपेटन पर या अन्यथा नहीं लगे होंगे जिसमें उपभोक्ता को यह विश्वास हो जाए कि वह फल उत्पाद है ।

(ii) कोई खाद्य उत्पाद जिसमें केवल फल वासक अंतर्विष्ट हों चाहे प्राकृतिक वासक और प्राकृतिक वासक पदार्थ हों या वासक पदार्थों से मिलती-जुलती प्रकृति या एकल रूप में

या संयोजन में कृत्रिम पदार्थ हों किसी फल उत्पाद के रूप में वर्णित नहीं किया जाएगा और 'फल' शब्द ऐसे किसी उत्पाद के वर्णन करने में प्रयुक्त नहीं किया जाएगा और ऐसा उत्पाद का ऐसे किसी लेबल के साथ विक्रय नहीं किया जाएगा जिसपर कोई फल का चित्र या शब्द लगा हो ।

(iii) कोई खाद्य उत्पाद जिसमें फल संघटक के रूप में प्रयुक्त नहीं किया गया है ऐसे उत्पाद के वर्णन करने में 'फल' शब्द का प्रयोग नहीं किया जाएगा और ऐसा उत्पाद का ऐसे किसी लेबल के साथ विक्रय नहीं किया जाएगा जिसपर कोई फल का चित्र या शब्द लगा हो ।

(iv) कार्बोनेटीकृत जल पर जिसमें कोई फल रस या फल गूदा अंतर्विष्ट नहीं है ऐसा कोई लेबल नहीं होगा जिसमें उपभोक्ता को यह विश्वास हो जाए कि वह फल उत्पाद है ।”

7. नियम 42 के उपनियम (ययय) में खंड (21) के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् , -

“ (22) किसी तीव्रग्राही और/या अतिसंवेदी संघटकों से युक्त खाद्य के प्रत्येक पैकेज पर निम्नलिखित लेबल लगा होगा :-

इस.....(खाद्य का नाम) में.....तीव्र
ग्राही और/या अतिसंवेदी संघटक अंतर्विष्ट हैं ।

8. नियम 44-ज के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

“ नियम 44 झ. उत्पादों में ऐसे पदार्थ अंतर्विष्ट नहीं होंगे जो स्वास्थ्य के लिए हानिकार हो सकते हैं,—

उत्पाद में ऐसे कोई पदार्थ अंतर्विष्ट नहीं होंगे जो स्वास्थ्य के लिए हानिकार हो सकते हैं ।

जहां किसी खाद्य में नियमों के अधीन पहचान किए गए रूप में कोई तीव्रग्राही और/या अतिसंवेदी संघटक, या किसी तीव्रग्राही और/या अतिसंवेदी संघटकों से उद्भूत होने वाला कोई संघटक अंतर्विष्ट है खाद्य के नाम में तीव्रग्राही संघटकों/ अतिसंवेदी संघटकों को विनिर्दिष्ट नहीं करता है वहां नियम 42 के उपनियम (ययय)(22) में यथा उपबंधित लेबल घोषणा लगी होगी ।”

9. नियम 48ख का लोप किया जाएगा

[फा. सं. पी. 15014/9/2001-पीएच(खाद्य)]

रीटा तेवतिया, संयुक्त सचिव

टिप्पण— खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 पहले दिनांक 12 सितम्बर, 1955 को का.नि.आ. 2106 के तहत भारत के राजपत्र के भाग-II, खण्ड-3 में प्रकाशित किए गए थे और उसके बाद निम्नलिखित नम्बरों से संशोधित किए गए।

1.	का.नि.आ. 1202	26.05.1956	
2.	का.नि.आ. 1687	28.07.1956	
3.	का.नि.आ. 2213	28.09.1956	
4.	का.नि.आ. 2755	24.11.1956	
इसके बाद के संशोधन भारत के राजपत्र के भाग-II, खण्ड-3, उपखण्ड (1) में निम्नलिखित संख्याओं के तहत प्रकाशित किए गए: जो इस प्रकार हैं -			
5.	सा.का.नि. 514	28.06.1958	
6.	सा.का.नि. 1211	20.12.1958	
7.	सा.का.नि. 425	04.04.1960	
8.	सा.का.नि. 169	11.02.1961	
9.	सा.का.नि. 1134	16.09.1961	
10.	सा.का.नि. 1340	04.11.1961	
11.	सा.का.नि. 1564	24.11.1962	
12.	सा.का.नि. 1589	22.10.1964	
13.	सा.का.नि. 1814	11.12.1965	
14.	सा.का.नि. 74	08.01.1966	
15.	सा.का.नि. 382	19.03.1966	
16.	सा.का.नि. 1256	26.08.1967	
17.	सा.का.नि. 1533	24.08.1968	
18.	सा.का.नि. 2163	14.12.1968	शुद्धि पत्र
19.	सा.का.नि. 532	08.03.1969	
20.	सा.का.नि. 1764	26.07.1969	
21.	सा.का.नि. 2068	30.08.1969	
22.	सा.का.नि. 1809	24.10.1970	
23.	सा.का.नि. 938	12.06.1971	पहला संशोधन, 1971
24.	सा.का.नि. 992	03.07.1971	दूसरा संशोधन, 1971
25.	सा.का.नि. 553	06.05.1972	पहला संशोधन, 1972
26.	सा.का.नि. 436	10.10.1972	दूसरा संशोधन, 1972
27.	सा.का.नि. 133	10.02.1973	पहला संशोधन, 1973
28.	सा.का.नि. 205	23.02.1974	पहला संशोधन, 1974
29.	सा.का.नि. 850	12.07.1975	पहला संशोधन, 1975

30	सा.का.नि. 508(अ)	27.09.1975	दूसरा संशोधन, 1975
31	सा.का.नि. 63(अ)	05.02.1976	पहला संशोधन, 1976
32	सा.का.नि. 754(अ)	29.05.1976	दूसरा संशोधन, 1976
33	सा.का.नि. 755(अ)	29.05.1978	तीसरा संशोधन, 1978
34	सा.का.नि. 858(अ)	12.06.1976	
35	सा.का.नि. 1417	02.10.1976	चौथा संशोधन, 1978
36	सा.का.नि. 4(अ)	04.01.1977	पहला संशोधन, 1977
37	सा.का.नि. 18(अ)	15.01.1977	दूसरा संशोधन, 1977
38	सा.का.नि. 651(अ)	22.10.1977	तीसरा संशोधन, 1977
39	सा.का.नि. 732(अ)	05.12.1977	चौथा संशोधन, 1977
40	सा.का.नि. 775(अ)	27.12.1977	पांचवां संशोधन, 1977
41	सा.का.नि. 36(अ)	21.01.1978	पहला संशोधन, 1978
42	सा.का.नि. 70(अ)	08.02.1978	दूसरा संशोधन, 1978
43	सा.का.नि. 238(अ)	20.04.1978	तीसरा संशोधन, 1978
44	सा.का.नि. 393(अ)	04.08.1978	चौथा संशोधन, 1978
45	सा.का.नि. 590(अ)	23.12.1978	पांचवां संशोधन, 1978
46	सा.का.नि. 55(अ)	31.01.1979	पहला संशोधन, 1979
47	सा.का.नि. 142(अ)	18.03.1979	शुद्धि पत्र
48	सा.का.नि. 231(अ)	06.04.1979	दूसरा संशोधन, 1979
49	सा.का.नि. 1043(अ)	11.08.1979	शुद्धि पत्र
50	सा.का.नि. 1210(अ)	29.09.1979	शुद्धि पत्र
51	सा.का.नि. 19(अ)	28.01.1980	पहला संशोधन, 1980
52	सा.का.नि. 243(अ)	01.03.1980	दूसरा संशोधन, 1980
53	सा.का.नि. 244(अ)	01.03.1980	तीसरा संशोधन, 1980
54	सा.का.नि. 577(अ)	24.05.1980	शुद्धि पत्र
55	सा.का.नि. 998(अ)	27.09.1980	शुद्धि पत्र
56	सा.का.नि. 579(अ)	13.10.1980	चौथा संशोधन, 1980
57	सा.का.नि. 652(अ)	14.11.1980	पांचवां संशोधन, 1980
58	सा.का.नि. 710(अ)	22.12.1980	छठा संशोधन, 1980
59	सा.का.नि. 23(अ)	16.01.1981	पहला संशोधन, 1981
59 ए	सा.का.नि. 283(अ)	25.02.1981	शुद्धि पत्र
60	सा.का.नि. 205(अ)	25.03.1981	शुद्धि पत्र
61	सा.का.नि. 290(अ)	13.04.1981	दूसरा संशोधन, 1981
82	सा.का.नि. 444	02.05.1981	शुद्धि पत्र
63	सा.का.नि. 503(अ)	01.09.1981	तीसरा संशोधन, 1981

64	सा.का.नि. 891	03.10.1981	शुद्धि पत्र
65	सा.का.नि. 1056	05.12.1981	शुद्धि पत्र
66	सा.का.नि. 80	23.01.1982	शुद्धि पत्र
67	सा.का.नि. 44(अ)	05.02.1982	पहला संशोधन, 1982
68	सा.का.नि. 57(अ)	11.02.1982	दूसरा संशोधन, 1982
69	सा.का.नि. 245(अ)	11.03.1982	तीसरा संशोधन, 1982
70	सा.का.नि. 307(अ)	03.04.1982	शुद्धि पत्र
71	सा.का.नि. 386(अ)	17.04.1982	शुद्धि पत्र
72	सा.का.नि. 422(अ)	24.05.1982	चौथा संशोधन, 1982
73	सा.का.नि. 476(अ)	29.06.1982	पांचवां संशोधन, 1982
74	सा.का.नि. 504(अ)	20.07.1982	शुद्धि पत्र
75	सा.का.नि. 753(अ)	11.12.1982	शुद्धि पत्र
76	सा.का.नि. 109(अ)	26.02.1983	पहला संशोधन, 1983
77	सा.का.नि. 249(अ)	08.03.1983	दूसरा संशोधन, 1983
78	सा.का.नि. 268(अ)	16.03.1983	तीसरा संशोधन, 1983
79	सा.का.नि. 283(अ)	26.03.1983	चौथा संशोधन, 1983
80	सा.का.नि. 329(अ)	14.04.1983	शुद्धि पत्र
81	सा.का.नि. 539(अ)	01.07.1983	शुद्धि पत्र
82	सा.का.नि. 634	09.08.1983	शुद्धि पत्र
83	सा.का.नि. 743(अ)	08.10.1983	शुद्धि पत्र
84	सा.का.नि. 790(अ)	10.10.1983	पांचवां संशोधन, 1983
85	सा.का.नि. 803(अ)	27.10.1983	छठा संशोधन, 1983
86	सा.का.नि. 816(अ)	03.11.1983	सातवां संशोधन, 1983
87	सा.का.नि. 829(अ)	07.11.1983	आठवां संशोधन, 1983
88	सा.का.नि. 848(अ)	19.11.1983	नौवां संशोधन, 1983
89	सा.का.नि. 893(अ)	17.12.1983	शुद्धि पत्र
90	सा.का.नि. 113	20.01.1984	शुद्धि पत्र
91	सा.का.नि. 500(अ)	09.07.1984	पहला संशोधन, 1984
92	सा.का.नि. 612(अ)	18.08.1984	शुद्धि पत्र
93	सा.का.नि. 744(अ)	27.10.1984	दूसरा संशोधन, 1984
94	सा.का.नि. 764(अ)	15.11.1984	तीसरा संशोधन, 1984
95	सा.का.नि. 3 (अ)	01.01.1985	पहला संशोधन, 1985
96	सा.का.नि. 11 (अ)	04.01.1985	दूसरा संशोधन, 1985
97	सा.का.नि. 142(अ)	08.03.1985	शुद्धि पत्र
98	सा.का.नि. 293(अ)	23.03.1985	तीसरा संशोधन, 1985
99	सा.का.नि. 368(अ)	18.04.1985	शुद्धि पत्र

100	सा.का.नि. 385(अ)	29.04.1985	शुद्धि पत्र
101	सा.का.नि. 543(अ)	02.07.1985	चौथा संशोधन, 1985
102	सा.का.नि. 550(अ)	04.07.1985	पांचवां संशोधन, 1985
103	सा.का.नि. 587(अ)	17.07.1985	शुद्धि पत्र
104	सा.का.नि. 605(अ)	24.07.1985	छठा संशोधन, 1985
105	सा.का.नि. 745(अ)	20.09.1985	आठवां संशोधन, 1985
106	सा.का.नि. 746(अ)	20.09.1985	सातवां संशोधन, 1985
107	सा.का.नि. 748(अ)	23.09.1985	शुद्धि पत्र
108	सा.का.नि. 892(अ)	06.12.1985	नौवां संशोधन, 1985
109	सा.का.नि. 903(अ)	17.12.1985	शुद्धि पत्र
110	सा.का.नि. 73(अ)	29.01.1986	पहला संशोधन, 1986
111	सा.का.नि. 507(अ)	19.03.1986	दूसरा संशोधन, 1986
112	सा.का.नि. 724(अ)	29.03.1986	शुद्धि पत्र
113	सा.का.नि. 851(अ)	13.06.1986	तीसरा संशोधन, 1986
114	सा.का.नि. 852(अ)	13.06.1986	चौथा संशोधन, 1986
115	सा.का.नि. 910(अ)	27.06.1986	पांचवां संशोधन, 1986
116	सा.का.नि. 939(अ)	09.07.1986	शुद्धि पत्र
117	सा.का.नि. 1008(अ)	18.08.1986	शुद्धि पत्र
118	सा.का.नि. 1149(अ)	15.10.1986	शुद्धि पत्र
119	सा.का.नि. 1207(अ)	18.11.1986	शुद्धि पत्र
120	सा.का.नि. 1228(अ)	27.11.1986	छठा संशोधन, 1986
121	सा.का.नि. 12(अ)	05.01.1987	पहला संशोधन, 1987
122	सा.का.नि. 28(अ)	13.01.1987	शुद्धि पत्र
123	सा.का.नि. 270(अ)	02.03.1987	दूसरा संशोधन, 1987
124	सा.का.नि. 344(अ)	31.03.1987	शुद्धि पत्र
125	सा.का.नि. 422(अ)	29.04.1987	तीसरा संशोधन, 1987
126	सा.का.नि. 500(अ)	15.05.1987	शुद्धि पत्र
127	सा.का.नि. 569(अ)	12.06.1987	शुद्धि पत्र
128	सा.का.नि. 840(अ)	06.10.1987	चौथा संशोधन, 1987
129	सा.का.नि. 900(अ)	10.11.1987	पांचवां संशोधन, 1987
130	सा.का.नि. 916(अ)	17.11.1987	छठा संशोधन, 1987
131	सा.का.नि. 917(अ)	17.11.1987	सातवां संशोधन, 1987
132	सा.का.नि. 918(अ)	17.11.1987	शुद्धि पत्र
133	सा.का.नि. 72(अ)	03.02.1988	शुद्धि पत्र
134	सा.का.नि. 73(अ)	03.02.1988	शुद्धि पत्र
135	सा.का.नि. 366(अ)	23.03.1988	शुद्धि पत्र

136	सा.का.नि. 367(अ)	23.03.1988	पहला संशोधन, 1988
137	सा.का.नि. 436(अ)	08.04.1988	तीसरा संशोधन, 1988
138	सा.का.नि. 437(अ)	08.04.1988	दूसरा संशोधन, 1988
139	सा.का.नि. 454(अ)	15.04.1988	चौथा संशोधन, 1988
140	सा.का.नि. 618(अ)	16.05.1988	पांचवां संशोधन, 1988
141	सा.का.नि. 855(अ)	12.08.1988	शुद्धि पत्र
142	सा.का.नि. 856(अ)	12.08.1988	शुद्धि पत्र
143	सा.का.नि. 924(अ)	13.09.1988	शुद्धि पत्र
144	सा.का.नि. 1081(अ)	17.11.1988	शुद्धि पत्र
145	सा.का.नि. 1157(अ)	09.12.1988	शुद्धि पत्र
146	सा.का.नि. 42(अ)	20.01.1989	शुद्धि पत्र
147	सा.का.नि. 128(अ)	08.03.1990	पहला संशोधन, 1990
148	सा.का.नि. 411(अ)	29.03.1990	दूसरा संशोधन, 1990
149	सा.का.नि. 445(अ)	16.04.1990	तीसरा संशोधन, 1990
150	सा.का.नि. 457(अ)	23.04.1990	चौथा संशोधन, 1990
151	सा.का.नि. 727(अ)	23.08.1990	सातवां संशोधन, 1990
152	सा.का.नि. 728(अ)	23.08.1990	शुद्धि पत्र
153	सा.का.नि. 729(अ)	23.08.1990	पांचवां संशोधन, 1990
154	सा.का.नि. 732(अ)	23.08.1990	छठा संशोधन, 1990
155	सा.का.नि. 764(अ)	07.09.1990	आठवां संशोधन, 1990
156	सा.का.नि. 867(अ)	25.10.1990	शुद्धि पत्र
157	सा.का.नि. 10(अ)	07.01.1991	पहला संशोधन, 1991
158	सा.का.नि. 24(अ)	15.01.1991	दूसरा संशोधन, 1991
159	सा.का.नि. 66(अ)	11.02.1991	शुद्धि पत्र
160	सा.का.नि. 124(अ)	05.03.1991	तीसरा संशोधन, 1991
161	सा.का.नि. 168(अ)	21.03.1991	शुद्धि पत्र
162	सा.का.नि. 255(अ)	03.05.1991	शुद्धि पत्र
163	सा.का.नि. 257(अ)	03.05.1991	चौथा संशोधन, 1991
164	सा.का.नि. 281(अ)	29.05.1991	पांचवां संशोधन, 1991
165	सा.का.नि. 494(अ)	25.07.1991	छठा संशोधन, 1991
166	सा.का.नि. 531(अ)	14.08.1991	शुद्धि पत्र
167	सा.का.नि. 648(अ)	25.10.1991	शुद्धि पत्र
168	सा.का.नि. 731(अ)	10.12.1991	सातवां संशोधन, 1991
169	सा.का.नि. 66(अ)	30.01.1992	शुद्धि पत्र
170	सा.का.नि. 91(अ)	07.02.1992	पहला संशोधन, 1992
171	सा.का.नि. 101(अ)	18.02.1992	दूसरा संशोधन, 1992

172	सा.का.नि. 314(अ)	09.03.1992	शुद्धि पत्र
173	सा.का.नि. 524(अ)	15.05.1992	शुद्धि पत्र
174	सा.का.नि. 525(अ)	15.05.1992	शुद्धि पत्र
175	सा.का.नि. 591(अ)	15.06.1992	तीसरा संशोधन, 1992
176	सा.का.नि. 592(अ)	15.06.1992	शुद्धि पत्र
177	सा.का.नि. 596(अ)	17.06.1992	चौथा संशोधन, 1992
178	सा.का.नि. 784(अ)	28.09.1992	पांचवां संशोधन, 1992
179	सा.का.नि. 878(अ)	17.11.1992	छठा संशोधन, 1992
180	सा.का.नि. 903(अ)	02.12.1992	शुद्धि पत्र
181	सा.का.नि. 907(अ)	04.12.1992	सातवां संशोधन, 1992
182	सा.का.नि. 925(अ)	15.12.1992	शुद्धि पत्र
183	सा.का.नि. 429(अ)	25.05.1993	शुद्धि पत्र
184	सा.का.नि. 483(अ)	30.06.1993	शुद्धि पत्र
185	सा.का.नि. 509(अ)	14.07.1993	शुद्धि पत्र
186	सा.का.नि. 481	02.10.1993	पहला संशोधन, 1993
187	सा.का.नि. 695(अ)	09.11.1993	दूसरा संशोधन, 1993
188	सा.का.नि. 777(अ)	27.12.1993	शुद्धि पत्र
189	सा.का.नि. 105(अ)	22.02.1994	पहला संशोधन, 1994
190	सा.का.नि. 106(अ)	22.02.1994	शुद्धि पत्र
191	सा.का.नि. 107(अ)	22.02.1994	शुद्धि पत्र
192	सा.का.नि. 300(अ)	09.03.1994	शुद्धि पत्र
193	सा.का.नि. 512(अ)	15.06.1994	शुद्धि पत्र
194	सा.का.नि. 611(अ)	09.08.1994	शुद्धि पत्र
195	सा.का.नि. 614(अ)	09.08.1994	पांचवां संशोधन, 1994
196	सा.का.नि. 677(अ)	06.09.1994	छठा संशोधन, 1994
197	सा.का.नि. 807(अ)	14.11.1994	सातवां संशोधन, 1994
198	सा.का.नि. 808(अ)	14.11.1994	शुद्धि पत्र
199	सा.का.नि. 847(अ)	07.12.1994	आठवां संशोधन, 1994
200	सा.का.नि. 853(अ)	07.12.1994	नौवां संशोधन, 1994
201	सा.का.नि. 54(अ)	07.02.1995	शुद्धि पत्र
202	सा.का.नि. 60(अ)	07.02.1995	शुद्धि पत्र
203	सा.का.नि. 990(अ)	24.02.1995	शुद्धि पत्र
204	सा.का.नि. 991(अ)	26.02.1995	पहला संशोधन, 1995
205	सा.का.नि. 329(अ)	04.04.1995	शुद्धि पत्र
206	सा.का.नि. 404(अ)	09.07.1995	शुद्धि पत्र
207	सा.का.नि. 518(अ)	26.06.1995	शुद्धि पत्र

208	सा.का.नि. 579(अ)	04.08.1995	दूसरा संशोधन, 1995
209	सा.का.नि. 575(अ)	04.08.1995	तीसरा संशोधन, 1995
210	सा.का.नि. 578(अ)	04.08.1995	चौथा संशोधन, 1995
211	सा.का.नि. 613(अ)	04.09.1995	शुद्धि पत्र
212	सा.का.नि. 658(अ)	26.10.1995	चौथा संशोधन, 1995
213	सा.का.नि. 711(अ)	02.11.1995	शुद्धि पत्र
214	सा.का.नि. 775(अ)	05.12.1995	शुद्धि पत्र
215	सा.का.नि. 777(अ)	05.12.1995	छठा संशोधन, 1995
216	सा.का.नि. 791(अ)	13.12.1995	सातवां संशोधन, 1995
217	सा.का.नि. 792(अ)	13.12.1995	आठवां संशोधन, 1995
218	सा.का.नि. 121(अ)	11.03.1996	पहला संशोधन, 1996
219	सा.का.नि. 124(अ)	11.03.1996	शुद्धि पत्र
220	सा.का.नि. 222(अ)	20.05.1996	शुद्धि पत्र
221	सा.का.नि. 223(अ)	20.05.1996	दूसरा संशोधन, 1996
222	सा.का.नि. 232(अ)	04.06.1996	शुद्धि पत्र
223	सा.का.नि. 515(अ)	05.11.1996	शुद्धि पत्र
224	सा.का.नि. 550(अ)	04.12.1996	शुद्धि पत्र
225	सा.का.नि. 551(अ)	04.11.1996	शुद्धि पत्र
226	सा.का.नि. 553(अ)	04.12.1996	शुद्धि पत्र
227	सा.का.नि. 41(अ)	29.01.1997	पहला संशोधन, 1997
228	सा.का.नि. 147(अ)	14.03.1997	दूसरा संशोधन, 1997
229	सा.का.नि. 149(अ)	14.03.1997	तीसरा संशोधन, 1997
230	सा.का.नि. 283(अ)	29.05.1997	पांचवां संशोधन, 1997
231	सा.का.नि. 284(अ)	29.05.1997	चौथा संशोधन, 1997
232	सा.का.नि. 285(अ)	29.05.1997	शुद्धि पत्र
233	सा.का.नि. 286(अ)	29.05.1997	शुद्धि पत्र
234	सा.का.नि. 288(अ)	29.05.1997	शुद्धि पत्र
235	सा.का.नि. 303(अ)	04.06.1997	शुद्धि पत्र
236	सा.का.नि. 304(अ)	04.06.1997	छठा संशोधन, 1997
237	सा.का.नि. 382(अ)	10.07.1997	सातवां संशोधन, 1997
238	सा.का.नि. 465(अ)	14.08.1997	आठवां संशोधन, 1997
239	सा.का.नि. 546(अ)	17.09.1997	शुद्धि पत्र
240	सा.का.नि. 547(अ)	17.09.1997	शुद्धि पत्र
241	सा.का.नि. 549(अ)	17.09.1997	शुद्धि पत्र
242	सा.का.नि. 550(अ)	17.09.1997	नौवां संशोधन, 1997
243	सा.का.नि. 551(अ)	17.09.1997	शुद्धि पत्र

244	सा.का.नि. 670(अ)	27.09.1997	दसवां संशोधन, 1997
245	सा.का.नि. 671(अ)	27.11.1997	शुद्धि पत्र
246	सा.का.नि. 63(अ)	03.02.1998	शुद्धि पत्र
247	सा.का.नि. 64(अ)	03.02.1998	पहला संशोधन, 1998
248	सा.का.नि. 122(अ)	05.03.1998	शुद्धि पत्र
249	सा.का.नि. 178(अ)	06.04.1998	दूसरा संशोधन, 1998
250	सा.का.नि. 177(अ)	06.04.1998	तीसरा संशोधन, 1998
251	सा.का.नि. 175(अ)	06.04.1998	चौथा संशोधन, 1998
252	सा.का.नि. 172(अ)	06.04.1998	पांचवां संशोधन, 1998
253	सा.का.नि. 176(अ)	06.04.1998	छठा संशोधन, 1998
254	सा.का.नि. 179(अ)	06.04.1998	सातवां संशोधन, 1998
255	सा.का.नि. 171(अ)	06.04.1998	आठवां संशोधन, 1998
256	सा.का.नि. 174(अ)	06.04.1998	नौवां संशोधन, 1998
257	सा.का.नि. 380(अ)	09.07.1998	दसवां संशोधन, 1998
258	सा.का.नि. 381(अ)	09.07.1998	शुद्धि पत्र
259	सा.का.नि. 382(अ)	09.07.1998	शुद्धि पत्र
260	सा.का.नि. 476(अ)	07.08.1998	शुद्धि पत्र
261	सा.का.नि. 477(अ)	07.08.1998	शुद्धि पत्र
262	सा.का.नि. 479(अ)	07.08.1998	शुद्धि पत्र
263	सा.का.नि. 480(अ)	07.08.1998	शुद्धि पत्र
264	सा.का.नि. 481(अ)	07.08.1998	शुद्धि पत्र
265	सा.का.नि. 646(अ)	28.10.1998	शुद्धि पत्र
266	सा.का.नि. 648(अ)	28.10.1998	शुद्धि पत्र
267	सा.का.नि. 693(अ)	20.11.1998	ग्यारहवां संशोधन, 1998
268	सा.का.नि. 119(अ)	17.02.1999	शुद्धि पत्र
269	सा.का.नि. 240(अ)	05.04.1999	पहला संशोधन, 1999
270	सा.का.नि. 241(अ)	05.04.1999	दूसरा संशोधन, 1999
271	सा.का.नि. 319(अ)	06.05.1999	तीसरा संशोधन, 1999
272	सा.का.नि. 396(अ)	27.05.1999	चौथा संशोधन, 1999
273	सा.का.नि. 507(अ)	08.07.1999	शुद्धि पत्र
274	सा.का.नि. 531(अ)	19.07.1999	शुद्धि पत्र
275	सा.का.नि. 532(अ)	19.07.1999	शुद्धि पत्र
276	सा.का.नि. 615(अ)	31.08.1999	शुद्धि पत्र
277	सा.का.नि. 630(अ)	10.09.1999	शुद्धि पत्र
278	सा.का.नि. 631(अ)	10.09.1999	शुद्धि पत्र
279	सा.का.नि. 692(अ)	11.10.1999	पांचवां संशोधन, 1999

280	सा.का.नि. 695(अ)	11.10.1999	छठा संशोधन, 1999
281	सा.का.नि. 694(अ)	11.10.1999	सातवां संशोधन, 1999
282	सा.का.नि. 697(अ)	11.10.1999	शुद्धि पत्र
283	सा.का.नि. 769(अ)	15.11.1999	शुद्धि पत्र
284	सा.का.नि. 13(अ)	05.01.2000	शुद्धि पत्र
285	सा.का.नि. 463(अ)	17.05.2000	पहला संशोधन, 2000
286	सा.का.नि. 501(अ)	29.05.2000	दूसरा संशोधन, 2000
287	सा.का.नि. 537(अ)	13.06.2000	तीसरा संशोधन, 2000
288	सा.का.नि. 718(अ)	13.09.2000	चौथा संशोधन, 2000
289	सा.का.नि. 716(अ)	13.09.2000	पांचवां संशोधन, 2000
290	सा.का.नि. 717(अ)	13.09.2000	शुद्धि पत्र
291	सा.का.नि. 759(अ)	29.09.2000	छठा संशोधन, 2000
292	सा.का.नि. 760(अ)	29.09.2000	सातवां संशोधन, 2000
293	सा.का.नि. 770(अ)	04.10.2000	आठवां संशोधन, 2000
294	सा.का.नि. 774(अ)	06.10.2000	शुद्धि पत्र
295	सा.का.नि. 877(अ)	20.11.2000	नौवां संशोधन, 2000
296	सा.का.नि. 876(अ)	20.11.2000	दसवां संशोधन, 2000
297	सा.का.नि. 879(अ)	20.11.2000	शुद्धि पत्र
298	सा.का.नि. 7(अ)	04.01.2001	पहला संशोधन, 2001
299	सा.का.नि. 67(अ)	05.02.2001	दूसरा संशोधन, 2001
300	सा.का.नि. 165(अ)	07.03.2001	तीसरा संशोधन, 2001
301	सा.का.नि. 245(अ)	04.04.2001	चौथा संशोधन, 2001
302	सा.का.नि. 297(अ)	26.04.2001	पांचवां संशोधन, 2001
303	सा.का.नि. 296(अ)	26.04.2001	शुद्धि पत्र
304	सा.का.नि. 320(अ)	02.05.2001	छठा संशोधन, 2001
305	सा.का.नि. 670(अ)	17.09.2001	सातवां संशोधन, 2001
306	सा.का.नि. 895(अ)	11.12.2001	आठवां संशोधन, 2001
307	सा.का.नि. 908(अ)	20.12.2001	नौवां संशोधन, 2001
308	सा.का.नि. 59(अ)	24.01.2002	शुद्धि पत्र
309	सा.का.नि. 251(अ)	04.04.2002	पहला संशोधन, 2002
310	सा.का.नि. 310(अ)	01.05.2002	दूसरा संशोधन, 2002
311	सा.का.नि. 382(अ)	28.05.2002	तीसरा संशोधन, 2002
312	सा.का.नि. 438(अ)	19.06.2002	चौथा संशोधन, 2002
313	सा.का.नि. 437(अ)	19.06.2002	पांचवां संशोधन, 2002
314	सा.का.नि. 439(अ)	19.06.2002	छठा संशोधन, 2002
315	सा.का.नि. 530(अ)	30.07.2002	सातवां संशोधन, 2002

316	सा.का.नि. 853(अ)	30.12.2002	आठवां संशोधन, 2002
317	सा.का.नि. 508(अ)	24.06.2003	शुद्धि पत्र
318	सा.का.नि. 554(अ)	18.07.2003	पहला संशोधन, 2003
319	सा.का.नि. 610(अ)	29.07.2003	शुद्धि पत्र
320	सा.का.नि. 656(अ)	13.08.2003	दूसरा संशोधन, 2003
321	सा.का.नि. 771(अ)	29.09.2003	तीसरा संशोधन, 2003
322	सा.का.नि. 832(अ)	21.10.2003	चौथा संशोधन, 2003
323	सा.का.नि. 831(अ)	21.10.2003	पांचवां संशोधन, 2003
324	सा.का.नि. 388(अ)	25.06.2004	पहला संशोधन, 2004
325	सा.का.नि. 451(अ)	15.07.2004	दूसरा संशोधन, 2004
326	सा.का.नि. 517(अ)	10.08.2004	तीसरा संशोधन, 2004
327	सा.का.नि. 750(अ)	17.11.2004	शुद्धि पत्र
328	सा.का.नि. 809(अ)	14.12.2004	शुद्धि पत्र
329	सा.का.नि. 812(अ)	16.12.2004	चौथा संशोधन, 2004
330	सा.का.नि. 821(अ)	21.12.2004	पांचवां संशोधन, 2004
331	सा.का.नि. 175(अ)	16.03.2005	शुद्धि पत्र
332	सा.का.नि. 184(अ)	21.03.2005	पहला संशोधन, 2005
333	सा.का.नि. 185(अ)	21.03.2005	दूसरा संशोधन, 2005
334	सा.का.नि. 339(अ)	27.05.2005	तीसरा संशोधन, 2005
335	सा.का.नि. 356(अ)	07.06.2005	चौथा संशोधन, 2005
336	सा.का.नि. 417(अ)	23.06.2005	शुद्धि पत्र
337	सा.का.नि. 423(अ)	24.06.2005	शुद्धि पत्र
338	सा.का.नि. 591(अ)	15.09.2005	शुद्धि पत्र
339	सा.का.नि. 595(अ)	19.09.2005	शुद्धि पत्र
340	सा.का.नि. 596(अ)	20.09.2005	शुद्धि पत्र
341	सा.का.नि. 646 (अ)	20.10.2005	पांचवां संशोधन, 2005

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE**(Department of Health)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 25th November, 2005

G.S.R. 694(E).— The following draft of certain rules further to amend the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955, which the Central Government, after consultation with the Central Committee for Food Standards, proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 23 of the Prevention of Food Adulteration Act, 1954 (37 of 1954), is hereby published, as required by the said sub-section, for the information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Official Gazette in which this notification is published, are made available to the public.

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Secretary, Ministry of Health and Family Welfare, Government of India, Nirman Bhawan, New Delhi-110011.

The objections and suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period so specified will be considered by the Central Government.

DRAFT RULES

- (1) These rules may be called the Prevention of Food Adulteration (Amendment) Rules, 2005.
- (2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2.

In the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955 (hereinafter referred to as said rules, in rule 2, after clause (f), the following shall be inserted, namely, -

- (g) "Claim" means any representation which states, suggest or implies that a food has particular qualities relating to its origin, nutritional properties, nature, processing, composition or any other quality;
- (h) "Consumer" means persons and families purchasing and receiving food for consumption;
- (i) "Contaminant" means any substance not intentionally added to food, which is present in such food as a result of the production (including operations carried out in crop husbandry, animal husbandry and veterinary medicine), manufacture, processing, preparation, treatment, packing, packaging, transport or holding of such food or as a result of environmental contamination. The term does not include insect fragments, rodent hairs and other extraneous matter;
- (j) "Date of Manufacture" means the date on which the food becomes the product as described;
- (k) "Date of Packaging" means the date on which the food is placed in the immediate container in which it will be ultimately sold;
- (l) "Best Before" means the date which signifies the end of the period under any stated storage conditions during which the product will remain fully marketable and will retain any specific qualities for which tacit or express claims have been made. However, beyond the date the food may still be perfectly satisfactory;
- (m) "Expiry Date" means the date which signifies the end of the estimated period under any stated storage conditions, after which product probably will not have the quality attributes normally expected by the consumers and the food shall not be marketable;
- (n) "Food Additive" means any substance not normally consumed as a food by itself and not normally used as a typical ingredient of the food, whether or not it has nutritive value, the intentional addition of which to food for a technological (including organoleptic) purpose in the manufacture, processing, preparation, treatment, packing, packaging, transport or holding of such food results; or may be reasonably expected to result, (directly or indirectly) in it or its by-products becoming a component of or otherwise affecting the characteristics of such foods. The term does not include contaminants or substances added to food for maintaining or improving nutritional qualities;
- (o) "Food for Special dietary uses" means foods which are specially processed or formulated to satisfy particular dietary requirements because of a particular physical or physiological condition and / or specific diseases and disorders and which when are presented as such, the composition of these food stuffs shall be significantly different from the composition of foods of comparable nature, that exists.

Explanation: - Some examples of foods for special dietary uses are infant milk substitute, infant food, gluten free food, food with low-sodium content, foods for special medical purposes, formula for use in weight control diets;

- (p) "Ingredient" means any substance, including a food additive, used in the manufacture or preparation of a food and present in the final product although possibly in a modified form;
- (q) "Label" means a display of written, graphic, perforated, stamped, tag, brand, mark, pictorial or other descriptive matter, printed, stenciled, marked, embossed or impressed on, or attached to, a container, cover, lid or crown of any food package;
- (r) "Labelling" includes any written, printed or graphic matter that is present on the label, accompanies the food, or is displayed near the food, including that for the purpose of promoting its sale or disposal;
- (s) "Lot number" or "Code number" or "batch number" means the number either in numerals or alphabets or in combination, representing the Lot number or code number or batch number being preceded by the words "Lot No" or "Lot" or "code number" or "Batch No" or "Batch" or any distinguishing prefix by which the food can be traced in manufacture and identified in distribution;
- (t) "Prepackaged" means packaged or made up in advance in a container, ready for offer to the consumer, or for catering purposes;
- (u) "Principal display panel" means that part of a label which is intended or is likely to be displayed, and presented or shown or examined by the customer under normal and customary conditions of display, sale or purchase of the commodity contained in the package;
- (v) "Processing Aid" means substance or material, not including apparatus or utensils, and not consumed as a food ingredient by itself, intentionally used in the processing of raw materials, foods or its ingredients, to fulfill a certain technological purpose during treatment or processing and which may result in the non-intentional but unavoidable presence of residues or derivatives in the final product.

3. In rule 32 of the said rules, -

(A) for the words and figures "32. Package of food to carry a label: — Every package of food shall carry a label and unless otherwise provided in these rules, there shall be specified on every label:-

- (a) the name, trade name or description of food contained in the package;
- (b) the names of ingredients used in the product in 'descending order of their composition by weight or volume as the case may be;' the following shall be substituted, namely: -

“32, Package of food to carry a label, -**(1) General**

- (i) Prepackaged food shall not be described or presented on any label or in any labelling manner that is false, misleading or deceptive or is likely to create an erroneous impression regarding its character in any respect.
- (ii) Label in prepackaged foods shall be applied in such a manner that they will not become separated from the container.
- (iii) Contents on the label shall be clear, prominent, indelible and readily legible by the consumer under normal condition of purchase and use.
- (iv) Where the container is covered by a wrapper, the wrapper shall carry the necessary information or the label on the container shall be readily legible through the outer wrapper or not obscured by it.

(2) Labelling of Prepackaged Foods

Every package of food shall carry the following information on the label.

(a) The Name of the Food

The name, trade name or description of food contained in the package.

(b) List of Ingredients

A list of ingredients shall be declared on the label and shall be in the following manner.

- (i) The list of ingredients shall be headed or preceded by an appropriate title, which consists of or includes the term “ingredient”.
- (ii) The names of ingredients used in the product in descending order of their composition by weight or volume as the case may be.
- (iii) Every package of food sold as a mixture or combination shall disclose the ingoing percentage, by weight or volume as may be appropriate, of any ingredient at the time of the manufacture of the food (including ingredients of compound ingredients or categories or ingredients) and it –
 - (a) is emphasized as present on the label through words or pictures or graphics; or
 - (b) is essential to characterize the food and is essential to distinguish the food from others with which it may be confused; or
 - (c) is emphasized in the name of the food; or
 - (d) is the subject of an express or implied claim about the presence of any fruits, vegetables, whole grains or added sugars and
 - (e) the disclosure of which is deemed to be necessary to enhance the health of consumers or prevent consumer deception:

Provided that the above disclosure is not required where ingredient comprises less than two percent of the total weight of the product and has been used for the purposes of flavouring;

- (iv) The complete nutritional information per 100 gm of the product shall be given on the label containing the following: -
- Information on energy value should be expressed in kJ and Kcal per 100 gm or per 100 ml alongwith percentage of nutrient of RDA of ICMR.
 - Information on the amounts of protein, carbohydrate and fat in the food should be expressed in gm per 100 gm or per 100 ml alongwith percentage of nutrient of RDA of ICMR.
 - The amount and/or type of fatty acids (including amount of saturated fatty acids, polyunsaturated fatty acids and trans fatty acids).
 - Numerical information on vitamins and minerals should be expressed in metric units and/or as a percentage of the Nutrient Reference Value of ICMR per 100 gm or per 100 ml alongwith percentage of nutrient of RDA of ICMR."
- (v) Where an ingredient is itself the product of two or more ingredients, such a compound ingredient may be declared, as such, in the list of ingredients, provided that it is immediately accompanied by a list, in brackets, of its ingredients in descending order of weight:

Provided that where a compound ingredient for which a name has been established in these rules constitutes less than 2 percent of the food, the ingredients other than food additives which serve a technological function in the finished product need not to be declared;

- (vi) Added water shall be declared in the list of ingredients except when the water forms part of an ingredient such as brine, syrup or broth used in a compound food and declared as such in the list of ingredients. Water or other volatile ingredients evaporated in the course of manufacture need ~~not~~ to be declared;

Provided that dehydrated or condensed food, which are intended to be reconstituted by the addition of water only, the ingredients may be listed in order of weight in the reconstituted product provided that a statement such as "ingredients of the product when prepared in accordance with the directions on the label" is included."

(B) In clause (b), -

- (i) the first and second proviso including the paragraph after second proviso beginning with the words, "In case of packages of confectionery" and ending with the words, "without opening package", shall be omitted;

- (ii) at the end, before clause (c), the following proviso shall be inserted, namely: -

"Provided also that when combined declaration of colours and flavours are given, the international numerical identification number of colours used shall also be indicated either under the list of ingredients or along with the declaration:

Provided also that pork fat, lard and beef fat or extract thereof shall be declared by their specific names.”

- (C) For clauses (d), (e), (f), (g), (h) and all the provisos under clause (f) relating to clauses (b), (d), (e) and (f), the following shall be substituted, namely: -

“(d) Net contents and drained weight

The net weights or number or measure of volume of contents as the circumstances may require shall be declared on the label. The net contents shall be declared (a) for liquid foods, by volume; (b) for solid foods, by weight; (c) for semi-solid and viscous foods, either by weight or volume. In addition to the declaration of net contents, a food packed in a liquid medium shall carry a declaration in the metric system of the drained weight of the food. For the purposes of this requirement, liquid medium means water, aqueous solutions of sugar and salt, fruit and vegetable juices in canned fruits and vegetables only, or vinegar, either singly or in combination.

(e) Lot / Code / Batch identification

A batch number or code number or lot number which is a mark of identification by which the food can be traced in manufacture and identified in distribution, shall be given on the label.

(f) Date of manufacture or packing

The date, month and year in which the commodity is manufactured, packed or pre-packed, shall be given on the label. Provided that the month and the year of manufacture, packing or pre-packing shall be given if the “Best Before Date” of the products is more than 3 months:

Provided also that in case of any package commodity which has a short shelf life of less than 3 months, the date, month and year in which the commodity is manufactured or prepared or prepacked shall be mentioned, on the label.

(g) Date of Expiry

The date of expiry shall be given,-

- (i) in case of package of Aspertaine which shall be not more than three years from the date of packing;
- (ii) in case of infant milk substitute and infant foods.

(h) Irradiated foods

- (i) The label of a food, which has been treated with ionizing radiation, shall carry a written statement indicating the treatment in close proximity to the name of the food. The use of the international food irradiation symbol, as shown below shall be in close proximity to the name or brand name of the food.



- (ii) When an irradiated product is used as an ingredient in another food, this shall be so declared in the list of ingredients.
- (iii) When a single ingredient product is prepared from a raw material which has been irradiated, the label of the product shall contain a statement indicating the treatment.
- (iv) The licence number of irradiated units shall be declared on the label.”.

(D) In clause (i), the third proviso shall be omitted.

(E) After clause (i) and before Explanations, the following shall be inserted, namely: -

“(j) Country of Origin

- (i) The country of origin of the food shall be declared.
- (ii) When a food undergoes processing in a second country which changes its nature, the country in which the processing is performed shall be considered to be the country of origin for the purposes of labelling.

(k) Instructions for use

Instructions for use, including reconstitution, where applicable, shall be included on the label, as necessary, to ensure correct utilization of the food.

(l) Exemptions from labelling requirements

Where the largest surface area of the label is less than 10 cm², such label may be exempted from the requirements of list of Ingredients, Lot Number / Batch Number, Expiry Date / Best Before Date and Instruction for use, but these requirements shall be given on wholesale packages or multi-piece packages as the case may be.

(m) Other labelling requirements

Any information or pictorial device written, printed, or graphic matter may be displayed in labelling provided that it is not in conflict with the requirements of these rules.”.

(F) Explanation – I, III and IV occurring after clause (i) shall be omitted

4. For rule 37- A, the following rule shall be substituted, namely, -

“37-A, Manufacture of Proprietary food: -

Proprietary food means a food which has not been standardized under the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955.

In addition to the labelling provisions as prescribed under these rules elsewhere the proprietary food shall also conform to the following requirements: -

- (a) The manufacturer of proprietary products shall obtain separate licence for manufacture of each proprietary product. The manufacturer shall submit alongwith the application prototype label or final label whichever is available for perusal or examination of the Licencing Authority.
- (b) The name of the food and/or category under which it falls in these rules shall be mentioned on the label.
- (c) Every food sold as a mixture or combination shall disclose the ingoing percentage, by weight or volume as may be appropriate, of any ingredient at the time of the manufacture of the food including ingredients of compound ingredients or categories of ingredients that—
 - (i) is emphasized as present on the label through words or pictures or graphics; or
 - (ii) is essential to characterize the food and is essential to distinguish the food from others with which it may be confused; or
 - (iii) is emphasized in the name of the food; or
 - (iv) is the subject of an express or implied claim about the presence of any fruits, vegetables, whole grains or added sugars and
 - (v) the disclosure of which is deemed to be necessary to enhance the health of consumers or prevent consumer deception:

Provided that the above disclosure is not required where ingredient comprises less than two percent of the total weight of the product and has been used for the purposes of flavouring;

- (d) The complete nutritional information per 100 gm of the product shall be given on the label containing the following: -
 - (i) Information on energy value should be expressed in kJ and Kcal per 100 gm or per 100 ml alongwith percentage of nutrient of RDA of ICMR.
 - (ii) Information on the amounts of protein, carbohydrate and fat in the food should be expressed in gm per 100 gm or per 100 ml alongwith percentage of nutrient of RDA of ICMR.
 - (iii) The amount and/or type of fatty acids (including amount of saturated fatty acids, polyunsaturated fatty acids and trans fatty acids).
- Numerical information on vitamins and minerals should be expressed in metric units and/or as a percentage of the Nutrient Reference Value of ICMR per 100 gm or per 100 ml alongwith percentage of nutrient of RDA of ICMR.

- (e) Tobacco, alcoholic beverages and nicotine shall not be used as ingredients in manufacture of proprietary products.
- (f) The product shall not contain any substances which may be injurious to health.
- (g) Where food containing any allergenic and / or hypersensitive ingredients as identified under the rules, or any ingredient originating from an allergenic and / or hypersensitive ingredients, does not specify the allergenic ingredients / hypersensitive ingredients in the name of the foods, that food shall be marked or labeled with a clear reference to the name of the allergenic / hypersensitive ingredient concerned.
- (h) The product shall not contain food additives except as provided in the rules for that food and / or category of food."

5. In rule 37-B, before sub-rule (1), the following shall be inserted, namely, -

"An article of infant milk substitutes / infant foods whose standards are not prescribed in Appendix B shall be manufactured for sale, exhibited for sale or stored for sale only after obtaining the approval of such articles of food and its label from Government of India. The labelling requirements of infant milk substitutes / infant food shall also carry the following information in addition to the labelling provisions as prescribed under these rules elsewhere."

6. For sub-rule (2) of rule 40, the following sub-rule shall be substituted, namely, -

- "(2)(i) Any fruit syrup, fruit juice, fruit squash, fruit beverages, cordial, crush or any other fruit products standardized under Appendix B of these Rules, which does not contain the prescribed amount of fruit juice / fruit pulp / fruit content shall not be described as fruit syrup, fruit juice, fruit squash, fruit beverages, cordial, crush or any other fruit product as the case may be and such products shall be described as a non-fruit products.

Every non-fruit product shall be clearly, conspicuously and easily readable manner marked on the label as 'NON-FRUIT PRODUCT' and the container containing such product shall not have pictures of fruits or word fruit whether attached thereto or printed on the wrapper of such container or otherwise, which may lead the consumer into believing that it is a fruit product.

- (ii) Any food product which contains only fruit flavours whether natural flavours and natural flavouring substances or nature identical flavours substances or artificial flavouring substances as single or in combination shall not be described as a fruit product and the word 'FRUIT' shall not be used in describing such a product and such product shall not be sold with a label which carries the picture or word of any fruit.
- (iii) Any food product in which fruit has not been used as ingredient, the word 'FRUIT' shall not be used in describing such a product and such product shall not be sold with a label which carries the picture or word of any fruit.
- (iv) Carbonated water containing no fruit juice or fruit pulp shall not have a label which lead the consumer into believing that it is a fruit product."

7. In rule 42, in sub-rule (zzz), after clause (21), the following shall be inserted, namely, -

“(22) Every package of food containing any allergenic and/ or hypersensitive ingredients shall bear the following label:

This(name of food) contains.....(name of) allergenic and /or hypersensitive ingredients.
--

8. After rule 44-H, the following rules shall be inserted, namely,-

“ Rule 44-I. Product not to contain any substances which may be injurious to health. -

The product shall not contain any substances which may be injurious to health.

Where any food contains any allergenic and / or hypersensitive ingredients as identified under the rules, or any ingredient originating from an allergenic and / or hypersensitive ingredients, does not specify the allergenic ingredients / hypersensitive ingredients in the name of the foods, shall bear the label declaration as provided in sub-rule (zzz) (22) of rule 42.”

9. Rule 48-B shall be omitted.

[F. No. P. 15014/9/2001-PH (Food)]

RITA TEAOTIA, Jt. Secy.

Note: The Prevention of Food Adulteration Rules 1955 were published in Part II, section 3 of the Gazette of India vide S.R.O. 2106 dated the 12th September 1955 and were amended vide following numbers: -

1.	S.R.O. 1202	26.05.1956	
2.	S.R.O. 1687	28.07.1956	
3.	S.R.O. 2213	28.09.1956	
4.	S.R.O. 2755	24.11.1956	
The further amendments were published in Part II, section 3, sub-section (i) of the Gazette of India vide following numbers: -			
5.	G.S.R. 514	28.06.1958	
6.	G.S.R. 1211	20.12.1958	
7.	G.S.R. 425	04.04.1960	
8.	G.S.R. 169	11.02.1961	
9.	G.S.R. 1134	16.09.1961	
10.	G.S.R. 1340	04.11.1961	
11.	G.S.R. 1564	24.11.1962	
12.	G.S.R. 1589	22.10.1964	
13.	G.S.R. 1814	11.12.1965	
14.	G.S.R. 74	08.01.1966	
15.	G.S.R. 382	19.03.1966	
16.	G.S.R. 1256	26.08.1967	
17.	G.S.R. 1533	24.08.1968	
18.	G.S.R. 2163	14.12.1968	Corrigendum
19.	G.S.R. 532	08.03.1969	
20.	G.S.R. 1764	26.07.1969	
21.	G.S.R. 2068	30.08.1969	
22.	G.S.R. 1809	24.10.1970	
23.	G.S.R. 938	12.06.1971	1 st Amendment, 1971
24.	G.S.R. 992	03.07.1971	2 nd Amendment, 1971
25.	G.S.R. 553	06.05.1972	1 st Amendment, 1972
26.	G.S.R. 436	10.10.1972	2 nd Amendment, 1972
27.	G.S.R. 133	10.02.1973	1 st Amendment, 1973
28.	G.S.R. 205	23.02.1974	1 st Amendment, 1974
29.	G.S.R. 850	12.07.1975	1 st Amendment, 1975
30.	G.S.R. 508 (E)	27.09.1975	2 nd Amendment, 1975
31.	G.S.R. 63 (E)	05.02.1976	1 st Amendment, 1976
32.	G.S.R. 754 (E)	29.05.1976	2 nd Amendment, 1976
33.	G.S.R. 755 (E)	29.05.1976	3 rd Amendment, 1976
34.	G.S.R. 856 (E)	12.06.1976	
35.	G.S.R. 1417	02.10.1976	4 th Amendment, 1976
36.	G.S.R. 4 (E)	04.01.1977	1 st Amendment, 1977
37.	G.S.R. 18 (E)	15.01.1977	2 nd Amendment, 1977
38.	G.S.R. 651 (E)	22.10.1977	3 rd Amendment, 1977
39.	G.S.R. 732 (E)	05.12.1977	4 th Amendment, 1977

40.	G.S.R. 775 (E)	27.12.1977	5 th Amendment, 1977
41.	G.S.R. 36 (E)	21.01.1978	1 st Amendment, 1978
42.	G.S.R. 70 (E)	08.02.1978	2 nd Amendment, 1978
43.	G.S.R. 238 (E)	20.04.1978	3 rd Amendment, 1978
44.	G.S.R. 393 (E)	04.08.1978	4 th Amendment, 1978
45.	G.S.R. 590 (E)	23.12.1978	5 th Amendment, 1978
46.	G.S.R. 55 (E)	31.01.1979	1 st Amendment, 1979
47.	G.S.R. 142 (E)	16.03.1979	Corrigendum
48.	G.S.R. 231 (E)	06.04.1979	2 nd Amendment, 1979
49.	G.S.R. 1043 (E)	11.08.1979	Corrigendum
50.	G.S.R. 1210 (E)	29.09.1979	Corrigendum
51.	G.S.R. 19 (E)	28.01.1980	1 st Amendment, 1980
52.	G.S.R. 243 (E)	01.03.1980	2 nd Amendment, 1980
53.	G.S.R. 244 (E)	01.03.1980	3 rd Amendment, 1980
54.	G.S.R. 577 (E)	24.05.1980	Corrigendum
55.	G.S.R. 996 (E)	27.09.1980	Corrigendum
56.	G.S.R. 579 (E)	13.10.1980	4 th Amendment, 1980
57.	G.S.R. 652 (E)	14.11.1980	5 th Amendment, 1980
58.	G.S.R. 710 (E)	22.12.1980	6 th Amendment, 1980
59.	G.S.R. 23 (E)	16.01.1981	1 st Amendment, 1981
59A.	G.S.R. 283 (E)	25.2.1981	Corrigendum
60.	G.S.R. 205 (E)	25.03.1981	Corrigendum
61.	G.S.R. 290 (E)	13.04.1981	2 nd Amendment, 1981
62.	G.S.R. 444	02.05.1981	Corrigendum
63.	G.S.R. 503 (E)	01.09.1981	3 rd Amendment, 1981
64.	G.S.R. 891	03.10.1981	Corrigendum
65.	G.S.R. 1056	05.12.1981	Corrigendum
66.	G.S.R. 80	23.01.1982	Corrigendum
67.	G.S.R. 44 (E)	05.02.1982	1 st Amendment, 1982
68.	G.S.R. 57 (E)	11.02.1982	2 nd Amendment, 1982
69.	G.S.R. 245 (E)	11.03.1982	3 rd Amendment, 1982
70.	G.S.R. 307 (E)	03.04.1982	Corrigendum
71.	G.S.R. 386 (E)	17.04.1982	Corrigendum
72.	G.S.R. 422 (E)	24.05.1982	4 th Amendment, 1982
73.	G.S.R. 476 (E)	29.06.1982	5 th Amendment, 1982
74.	G.S.R. 504 (E)	20.07.1982	Corrigendum
75.	G.S.R. 753 (E)	11.12.1982	Corrigendum
76.	G.S.R. 109 (E)	26.02.1983	1 st Amendment, 1983
77.	G.S.R. 249 (E)	08.03.1983	2 nd Amendment, 1983
78.	G.S.R. 268 (E)	16.03.1983	3 rd Amendment, 1983
79.	G.S.R. 283 (E)	26.03.1983	4 th Amendment, 1983
80.	G.S.R. 329 (E)	14.04.1983	Corrigendum
81.	G.S.R. 539 (E)	01.07.1983	Corrigendum
82.	G.S.R. 634	09.08.1983	Corrigendum
83.	G.S.R. 743 (E)	08.10.1983	Corrigendum

84.	G.S.R. 790 (E)	10.10.1983	5 th Amendment, 1983
85.	G.S.R. 803 (E)	27.10.1983	6 th Amendment, 1983
86.	G.S.R. 816 (E)	03.11.1983	7 th Amendment, 1983
87.	G.S.R. 829 (E)	07.11.1983	8 th Amendment, 1983
88.	G.S.R. 848 (E)	19.11.1983	9 th Amendment, 1983
89.	G.S.R. 893 (E)	17.12.1983	Corrigendum
90.	G.S.R. 113	20.01.1984	Corrigendum
91.	G.S.R. 500 (E)	09.07.1984	1 st Amendment, 1984
92.	G.S.R. 612(E)	18.08.1984	Corrigendum
93.	G.S.R. 744 (E)	27.10.1984	2 nd Amendment, 1984
94.	G.S.R. 764 (E)	15.11.1984	3 rd Amendment, 1984
95.	G.S.R. 3 (E)	01.01.1985	1 st Amendment, 1985
96.	G.S.R. 11 (E)	04.01.1985	2nd Amendment, 1985
97.	G.S.R. 142 (E)	08.03.1985	Corrigendum
98.	G.S.R. 293 (E)	23.03.1985	3 rd Amendment, 1985
99.	G.S.R. 368 (E)	18.04.1985	Corrigendum
100.	G.S.R. 385 (E)	29.04.1985	Corrigendum
101.	G.S.R. 543 (E)	02.07.1985	4 th Amendment, 1985
102.	G.S.R. 550 (E)	04.07.1985	5 th Amendment, 1985
103.	G.S.R. 587 (E)	17.07.1985	Corrigendum
104.	G.S.R. 605 (E)	24.07.1985	6 th Amendment, 1985
105.	G.S.R. 745 (E)	20.09.1985	8 th Amendment, 1985
106.	G.S.R. 746 (E)	20.09.1985	7 th Amendment, 1985
107.	G.S.R. 748 (E)	23.09.1985	Corrigendum
108.	G.S.R. 892 (E)	06.12.1985	9 th Amendment, 1985
109.	G.S.R. 903 (E)	17.12.1985	Corrigendum
110.	G.S.R. 73 (E)	29.01.1986	1 st Amendment, 1986
111.	G.S.R. 507 (E)	19.03.1986	2 nd Amendment, 1986
112.	G.S.R. 724 (E)	29.03.1986	Corrigendum
113.	G.S.R. 851 (E)	13.06.1986	3 rd Amendment, 1986
114.	G.S.R. 852 (E)	13.06.1986	4 th Amendment, 1986
115.	G.S.R. 910 (E)	27.06.1986	5 th Amendment, 1986
116.	G.S.R. 939 (E)	09.07.1986	Corrigendum
117.	G.S.R. 1008(E)	18.08.1986	Corrigendum
118.	G.S.R. 1149 (E)	15.10.1986	Corrigendum
119.	G.S.R. 1207 (E)	18.11.1986	Corrigendum
120.	G.S.R. 1228 (E)	27.11.1986	6 th Amendment, 1986
121.	G.S.R. 12 (E)	05.01.1987	1 st Amendment, 1987
122.	G.S.R. 28 (E)	13.01.1987	Corrigendum
123.	G.S.R. 270 (E)	02.03.1987	2 nd Amendment, 1987
124.	G.S.R. 344 (E)	31.03.1987	Corrigendum
125.	G.S.R. 422 (E)	29.04.1987	3 rd Amendment, 1987
126.	G.S.R. 500 (E)	15.05.1987	Corrigendum
127.	G.S.R. 569 (E)	12.06.1987	Corrigendum
128.	G.S.R. 840 (E)	06.10.1987	4 th Amendment, 1987

129.	G.S.R. 900 (E)	10.11.1987	5 th Amendment, 1987
130.	G.S.R. 916 (E)	17.11.1987	6 th Amendment, 1987
131.	G.S.R. 917 (E)	17.11.1987	7 th Amendment, 1987
132.	G.S.R. 918 (E)	17.11.1987	Corrigendum
133.	G.S.R. 72 (E)	03.02.1988	Corrigendum
134.	G.S.R. 73 (E)	03.02.1988	Corrigendum
135.	G.S.R. 366 (E)	23.03.1988	Corrigendum
136.	G.S.R. 367 (E)	23.03.1988	1 st Amendment, 1988
137.	G.S.R. 436 (E)	08.04.1988	3 rd Amendment, 1988
138.	G.S.R. 437 (E)	08.04.1988	2 nd Amendment, 1988
139.	G.S.R. 454 (E)	15.04.1988	4 th Amendment, 1988
140.	G.S.R. 618 (E)	16.05.1988	5 th Amendment, 1988
141.	G.S.R. 855 (E)	12.08.1988	Corrigendum
142.	G.S.R. 856 (E)	12.08.1988	Corrigendum
143.	G.S.R. 924 (E)	13.09.1988	Corrigendum
144.	G.S.R. 1081 (E)	17.11.1988	Corrigendum
145.	G.S.R. 1157 (E)	09.12.1988	Corrigendum
146.	G.S.R. 42 (E)	20.01.1989	Corrigendum
147.	G.S.R. 128 (E)	08.03.1990	1 st Amendment, 1990
148.	G.S.R. 411 (E)	29.03.1990	2 nd Amendment, 1990
149.	G.S.R. 445 (E)	16.04.1990	3 rd Amendment, 1990
150.	G.S.R. 457 (E)	23.04.1990	4 th Amendment, 1990
151.	G.S.R. 727 (E)	23.08.1990	7 th Amendment, 1990
152.	G.S.R. 728 (E)	23.08.1990	Corrigendum
153.	G.S.R. 729 (E)	23.08.1990	5 th Amendment, 1990
154.	G.S.R. 732 (E)	23.08.1990	6 th Amendment, 1990
155.	G.S.R. 764 (E)	07.09.1990	8 th Amendment, 1990
156.	G.S.R. 867 (E)	25.10.1990	Corrigendum
157.	G.S.R. 10 (E)	07.01.1991	1 st Amendment, 1991
158.	G.S.R. 24 (E)	15.01.1991	2 nd Amendment, 1991
159.	G.S.R. 66 (E)	11.02.1991	Corrigendum
160.	G.S.R. 124 (E)	05.03.1991	3 rd Amendment, 1991
161.	G.S.R. 168 (E)	21.03.1991	Corrigendum
162.	G.S.R. 255 (E)	03.05.1991	Corrigendum
163.	G.S.R. 257 (E)	03.05.1991	4 th Amendment, 1991
164.	G.S.R. 281 (E)	29.05.1991	5 th Amendment, 1991
165.	G.S.R. 494 (E)	25.07.1991	6 th Amendment, 1991
166.	G.S.R. 531 (E)	14.08.1991	Corrigendum
167.	G.S.R. 648 (E)	25.10.1991	Corrigendum
168.	G.S.R. 731 (E)	10.12.1991	7 th Amendment, 1991
169.	G.S.R. 66 (E)	30.01.1992	Corrigendum
170.	G.S.R. 91 (E)	07.02.1992	1 st Amendment, 1992
171.	G.S.R. 101 (E)	18.02.1992	2 nd Amendment, 1992
172.	G.S.R. 314 (E)	09.03.1992	Corrigendum
173.	G.S.R. 524 (E)	15.05.1992	Corrigendum

174.	G.S.R. 525 (E)	15.05.1992	Corrigendum
175.	G.S.R. 591 (E)	15.06.1992	3 rd Amendment, 1992
176.	G.S.R. 592 (E)	15.06.1992	Corrigendum
177.	G.S.R. 596 (E)	17.06.1992	4 th Amendment, 1992
178.	G.S.R. 784 (E)	28.09.1992	5 th Amendment, 1992
179.	G.S.R. 878 (E)	17.11.1992	6 th Amendment, 1992
180.	G.S.R. 903 (E)	02.12.1992	Corrigendum
181.	G.S.R. 907 (E)	04.12.1992	7 th Amendment, 1992
182.	G.S.R. 925 (E)	15.12.1992	Corrigendum
183.	G.S.R. 429 (E)	25.05.1993	Corrigendum
184.	G.S.R. 483 (E)	30.06.1993	Corrigendum
185.	G.S.R. 509 (E)	14.07.1993	Corrigendum
186.	G.S.R. 481	02.10.1993	1 st Amendment, 1993
187.	G.S.R. 695 (E)	09.11.1993	2 nd Amendment, 1993
188.	G.S.R. 777 (E)	27.12.1993	Corrigendum
189.	G.S.R. 105 (E)	22.02.1994	1 st Amendment, 1994
190.	G.S.R. 106 (E)	22.02.1994	2 nd Amendment, 1994
191.	G.S.R. 107 (E)	22.02.1994	3 rd Amendment, 1994
192.	G.S.R. 300 (E)	09.03.1994	4 th Amendment, 1994
193.	G.S.R. 512 (E)	15.06.1994	Corrigendum
194.	G.S.R. 611 (E)	09.08.1994	Corrigendum
195.	G.S.R. 614 (E)	09.08.1994	5 th Amendment, 1994
196.	G.S.R. 677(E)	06.09.1994	6 th Amendment, 1994
197.	G.S.R. 807 (E)	14.11.1994	7 th Amendment, 1994
198.	G.S.R. 808 (E)	14.11.1994	Corrigendum
199.	G.S.R. 847 (E)	07.12.1994	8 th Amendment, 1994
200.	G.S.R. 853 (E)	07.12.1994	9 th Amendment, 1994
201.	G.S.R. 54 (E)	07.02.1995	Corrigendum
202.	G.S.R. 60 (E)	07.02.1995	Corrigendum
203.	G.S.R. 90 (E)	24.02.1995	Corrigendum
204.	G.S.R. 91 (E)	26.02.1995	1st Amendment, 1995
205.	G.S.R. 329 (E)	04.04.1995	Corrigendum
206.	G.S.R. 494 (E)	09.07.1995	Corrigendum
207.	G.S.R. 518 (E)	26.06.1995	Corrigendum
208.	G.S.R. 579 (E)	04.08.1995	2 nd Amendment, 1995
209.	G.S.R. 575 (E)	04.08.1995	3 rd Amendment, 1995
210.	G.S.R. 578 (E)	04.08.1995	4 th Amendment, 1995
211.	G.S.R. 613 (E)	04.09.1995	Corrigendum
212.	G.S.R. 698 (E)	26.10.1995	5 th Amendment, 1995
213.	G.S.R. 711 (E)	02.11.1995	Corrigendum
214.	G.S.R. 775 (E)	05.12.1995	Corrigendum
215.	G.S.R. 777 (E)	05.12.1995	6 th Amendment, 1995
216.	G.S.R. 791 (E)	13.12.1995	7 th Amendment, 1995
217.	G.S.R. 792 (E)	13.12.1995	8 th Amendment, 1995
218.	G.S.R. 121 (E)	11.03.1996	1st Amendment, 1996

219.	G.S.R. 124 (E)	11.03.1996	Corrigendum
220.	G.S.R. 222 (E)	20.05.1996	Corrigendum
221.	G.S.R. 223 (E)	20.05.1996	2 nd Amendment, 1996
222.	G.S.R. 232 (E)	04.06.1996	Corrigendum
223.	G.S.R. 515 (E)	05.11.1996	Corrigendum
224.	G.S.R. 550 (E)	04.12.1996	Corrigendum
225.	G.S.R. 551 (E)	04.11.1996	Corrigendum
226.	G.S.R. 553 (E)	04.12.1996	Corrigendum
227.	G.S.R. 41 (E)	29.01.1997	1st Amendment, 1997
228.	G.S.R. 147 (E)	14.03.1997	2 nd Amendment, 1997
229.	G.S.R. 149 (E)	14.03.1997	3 rd Amendment, 1997
230.	G.S.R. 283 (E)	29.05.1997	5 th Amendment, 1997
231.	G.S.R. 284 (E)	29.05.1997	4 th Amendment, 1997
232.	G.S.R. 285 (E)	29.05.1997	Corrigendum
233.	G.S.R. 286 (E)	29.05.1997	Corrigendum
234.	G.S.R. 288 (E)	29.05.1977	Corrigendum
235.	G.S.R. 303 (E)	04.06.1997	Corrigendum
236.	G.S.R. 304 (E)	04.06.1997	6 th Amendment, 1997
237.	G.S.R. 382 (E)	10.07.1997	7 th Amendment, 1997
238.	G.S.R. 465 (E)	14.08.1997	8 th Amendment, 1997
239.	G.S.R. 546 (E)	17.09.1997	Corrigendum
240.	G.S.R. 547 (E)	17.09.1997	Corrigendum
241.	G.S.R. 549 (E)	17.09.1997	Corrigendum
242.	G.S.R. 550 (E)	17.09.1997	9 th Amendment, 1997
243.	G.S.R. 551 (E)	17.09.1997	Corrigendum
244.	G.S.R. 670 (E)	27.09.1997	10 th Amendment, 1997
245.	G.S.R. 671 (E)	27.11.1997	Corrigendum
246.	G.S.R. 63 (E)	03.02.1998	Corrigendum
247.	G.S.R. 64 (E)	03.02.1998	1st Amendment, 1998
248.	G.S.R. 122 (E)	05.03.1998	Corrigendum
249.	G.S.R. 178 (E)	06.04.1998	2 nd Amendment, 1998
250.	G.S.R. 177 (E)	06.04.1998	3 rd Amendment, 1998
251.	G.S.R. 175 (E)	06.04.1998	4 th Amendment, 1998
252.	G.S.R. 172 (E)	06.04.1998	5 th Amendment, 1998
253.	G.S.R. 176 (E)	06.04.1998	6 th Amendment, 1998
254.	G.S.R. 179 (E)	06.04.1998	7 th Amendment, 1998
255.	G.S.R. 171 (E)	06.04.1998	8 th Amendment, 1998
256.	G.S.R. 174 (E)	06.04.1998	9 th Amendment, 1998
257.	G.S.R. 380 (E)	09.07.1998	10 th Amendment, 1998
258.	G.S.R. 381 (E)	09.07.1998	Corrigendum
259.	G.S.R. 382 (E)	09.07.1998	Corrigendum
260.	G.S.R. 476 (E)	07.08.1998	Corrigendum
261.	G.S.R. 477 (E)	07.08.1998	Corrigendum
262.	G.S.R. 479 (E)	07.08.1998	Corrigendum
263.	G.S.R. 480 (E)	07.08.1998	Corrigendum

264.	G.S.R. 481 (E)	07.08.1998	Corrigendum
265.	G.S.R. 646 (E)	28.10.1998	Corrigendum
266.	G.S.R. 648 (E)	28.10.1998	Corrigendum
267.	G.S.R. 693 (E)	20.11.1998	11 th Amendment, 1998
268.	G.S.R. 119 (E)	17.02.1999	Corrigendum
269.	G.S.R. 240 (E)	05.04.1999	1 st Amendment, 1999
270.	G.S.R. 241 (E)	05.04.1999	2 nd Amendment, 1999
271.	G.S.R. 319 (E)	06.05.1999	3 rd Amendment, 1999
272.	G.S.R. 396 (E)	27.05.1999	4 th Amendment, 1999
273.	G.S.R. 507 (E)	08.07.1999	Corrigendum
274.	G.S.R. 531 (E)	19.07.1999	Corrigendum
275.	G.S.R. 532 (E)	19.07.1999	Corrigendum
276.	G.S.R. 615 (E)	31.08.1999	Corrigendum
277.	G.S.R. 630 (E)	10.09.1999	Corrigendum
278.	G.S.R. 631 (E)	10.09.1999	Corrigendum
279.	G.S.R. 692 (E)	11.10.1999	5 th Amendment, 1999
280.	G.S.R. 695 (E)	11.10.1999	6 th Amendment, 1999
281.	G.S.R. 694 (E)	11.10.1999	7 th Amendment, 1999
282.	G.S.R. 697 (E)	11.10.1999	Corrigendum
283.	G.S.R. 769 (E)	15.11.1999	Corrigendum
284.	G.S.R. 13 (E)	05.01.2000	Corrigendum
285.	G.S.R. 463 (E)	17.05.2000	1 st Amendment, 2000
286.	G.S.R. 501 (E)	29.05.2000	2 nd Amendment, 2000
287.	G.S.R. 537 (E)	13.06.2000	3 rd Amendment, 2000
288.	G.S.R. 718 (E)	13.09.2000	4 th Amendment, 2000
289.	G.S.R. 716 (E)	13.09.2000	5 th Amendment, 2000
290.	G.S.R. 717 (E)	13.09.2000	Corrigendum
291.	G.S.R. 759 (E)	29.09.2000	6 th Amendment, 2000
292.	G.S.R. 760 (E)	29.09.2000	7 th Amendment, 2000
293.	G.S.R. 770 (E)	04.10.2000	8 th Amendment, 2000
294.	G.S.R. 774 (E)	06.10.2000	Corrigendum
295.	G.S.R. 877 (E)	20.11.2000	9 th Amendment, 2000
296.	G.S.R. 876 (E)	20.11.2000	10 th Amendment, 2000
297.	G.S.R. 879 (E)	20.11.2000	Corrigendum
298.	G.S.R. 7 (E)	04.01.2001	1 st Amendment, 2001
299.	G.S.R. 67 (E)	05.02.2001	2 nd Amendment, 2001
300.	G.S.R. 165 (E)	07.03.2001	3 rd Amendment, 2001
301.	G.S.R. 245 (E)	04.04.2001	4 th Amendment, 2001
302.	G.S.R. 297 (E)	26.04.2001	5 th Amendment, 2001
303.	G.S.R. 296 (E)	26.04.2001	Corrigendum
304.	G.S.R. 320 (E)	02.05.2001	6 th Amendment, 2001
305.	G.S.R. 670 (E)	17.09.2001	7 th Amendment, 2001
306.	G.S.R. 895 (E)	11.12.2001	8 th Amendment, 2001
307.	G.S.R. 908 (E)	20.12.2001	9 th Amendment, 2001
308.	G.S.R. 59 (E)	24.01.2002	Corrigendum

309.	G.S.R. 251 (E)	04.04.2002	1 st Amendment, 2002
310.	G.S.R. 310 (E)	01.05.2002	2 nd Amendment, 2002
311.	G.S.R. 382 (E)	28.05.2002	3 rd Amendment, 2002
312.	G.S.R. 438 (E)	19.06.2002	4 th Amendment, 2002
313.	G.S.R. 437 (E)	19.06.2002	5 th Amendment, 2002
314.	G.S.R. 439 (E)	19.06.2002	6 th Amendment, 2002
315.	G.S.R. 530 (E)	30.07.2002	7 th Amendment, 2002
316.	G.S.R. 853 (E)	30.12.2002	8 th Amendment, 2002
317.	G.S.R. 508 (E)	24.06.2003	Corrigendum
318.	G.S.R. 554 (E)	18.07.2003	1 st Amendment, 2003
319.	G.S.R. 610 (E)	29.07.2003	Corrigendum
320.	G.S.R. 656 (E)	13.08.2003	2 nd Amendment, 2003
321.	G.S.R. 771 (E)	29.09.2003	3 rd Amendment, 2003
322.	G.S.R. 832 (E)	21.10.2003	4 th Amendment, 2003
323.	G.S.R. 831 (E)	21.10.2003	5 th Amendment, 2003
324.	G.S.R. 388 (E)	25.06.2004	1 st Amendment, 2004
325.	G.S.R. 451 (E)	15.07.2004	2 nd Amendment, 2004
326.	G.S.R. 517 (E)	10.08.2004	3 rd Amendment, 2004
327.	G.S.R. 750 (E)	17.11.2004	Corrigendum
328.	G.S.R. 809 (E)	14.12.2004	Corrigendum
329.	G.S.R. 812 (E)	16.12.2004	4 th Amendment, 2004
330.	G.S.R. 821 (E)	21.12.2004	5 th Amendment, 2004
331.	G.S.R. 175 (E)	16.03.2005	Corrigendum
332.	G.S.R. 184 (E)	21.03.2005	1 st Amendment, 2005
333.	G.S.R. 185 (E)	21.03.2005	2 nd Amendment, 2005
334.	G.S.R. 339 (E)	27.05.2005	3 rd Amendment, 2005
335.	G.S.R. 356 (E)	07.06.2005	4 th Amendment, 2005
336.	G.S.R. 417 (E)	23.06.2005	Corrigendum
337.	G.S.R. 423 (E)	24.06.2005	Corrigendum
338.	G.S.R. 591 (E)	15.09.2005	Corrigendum
339.	G.S.R. 595 (E)	19.09.2005	Corrigendum
340.	G.S.R. 596 (E)	20.09.2005	Corrigendum
341.	G.S.R. 646 (E)	20.10.2005	5 th Amendment, 2005